

May 09, 2022

National Stock Exchange of India Ltd.,	BSE Ltd.,	Metropolitan Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, C-1 Block G, Bandra Kurla Complex Bandra [E], Mumbai – 400051	Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001	Vibgyor Towers, 4 th Floor, Plot No. C62, G - Block, Opp. Trident Hotel, Bandra Kurla, Complex, Bandra (E), Mumbai – 400098
NSE Scrip Symbol: BLS	BSE Scrip Code: 540073	MSE Scrip Symbol: BLS

Subject: Newspaper advertisement pursuant to Regulation 47 of the SEBI (LODR), Regulations, 2015

Dear Sir / Madam,

In compliance with Regulations 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (including any statutory modification(s), amendment(s) and reenactment(s) thereof), we are hereby enclosing copies of Newspaper advertisement of Audited Financial Results of the Company for the Fourth quarter and Year ended on March 31, 2022, published on Monday, May 09, 2022 in following newspapers:

- 1. Business Standard (All edition) English Language
- 2. Business Standard (Delhi edition) Hindi Language
- 3. Financial Express (All edition) English Language
- 4. Jansatta (Delhi edition Hindi Language

The aforesaid Newspaper clippings are also uploaded on Company's website at https://www.blsinternational.com.

For BLS International Services Limited

Dharak A. Mehta Company Secretary and Compliance Officer ICSI Membership No.: ACS40502

Encl: as above

Operators want to import PON equipment to meet the broadband targets, makers say have enough capacity

New Delhi, 8 May

bitter battle is brewing between telecom operators and equipment makers over the contentious issue of importing passive optical network (PON) equipment, which is installed in premises as well as in the exchange and is crucial for enabling high speed fixed broadband in homes.

The Telecom Equipment and Services Export Council (TEPC) — set up to promote telecom exports — has sided with equipment makers in rubbishing claims by telecom operators that the former are unable to supply them with the 80 lakh PON equipment which they require in the next year.

Given this inability, telecom operators would like permission to import the equipment. This permission is currently on hold through various government orders.

The TEPC says that, based on industry feedback, domestic manufacturers are fully capable of meeting demand and say this has been confirmed by companies such as the Tata-controlled Tejas Network, Nokia, Alphion, C-Dot, and Syrotech. However, their equipment is more expensive than what is available from China where the government supports companies.

Telcos are adamant that the lack of availability from domestic players, combined with their inability to import, is jeopardising the country achieving the aggressive targets fixed for the rolling out of fixed broadband which received a huge fillip after the Covid-19 lockdown.

For instance, Bharti Airtel is looking at launching fibre-to-home broadband in over 2,000 cities and towns by 2025 and reaching over 40 million home passes. Reliance Jio plans to reach 50 million households in a few years.

After border tensions broke out between China and India, the government, under its 'trusted sources' policy for telecom equipment announced in 2020 and its mandatory testing and certification rules, has put clearances for PON equipment on hold. Without these clearances, imports are impossible.

Telcos say the bulk of the low-value PON equipment is manufactured in China and there are only a few other units in other Asian coun-



Telcos say the bulk of the low-value PON equipment is manufactured in China

tries but these cannot match the Chinese prices. But the TEPC argues that, as the design for the equipment is offered by C-Dot, companies get it manufactured from EMS players and there is no shortage of capacity.

"The problem is that operators have not even given any firm orders or even conveyed their requirements in advance so that the industry can be ready. No one will manufacture and keep the equipment on the shelf if orders

are not placed," said a member of the TEPC. Telecom gear makers say they could give a more competitive price if operators were willing to give them bulk orders that would give them economies of scale.

The council does concede, however, that domestic equipment makers suffer from a price disadvantage stemming from the fact that Chinese companies are not only supported by their government but also offer cheap credit lines.

"Yes, India also has its telecom Production Linked Incentive scheme but it has just started so its benefits will come only later," said the same TEPC member.

The TEPC has also been pushing for PON equipment to have an HS code (required for import and export) so that it cannot enter the country through the back door by being classified under a different code.

The council is hoping for a meeting soon with the Department of Telecommunications to resolve the issue of adequate supplies of PON equipment.

Future arm to raise ₹3,000 crore from insurance biz sale

Debt-ridden Future Group firm Future Enterprises expects to raise around ₹3,000 crore from selling its stake in the insurance business to pare debt, which may save the company from facing the rigour of the insolvency process, according to industry sources.

FEL would raise nearly ₹2,950 crore by selling off a number of businesses and will pay to its lenders, the

cise that Future Group is doing to pay off as much debt of various cos so they can be regularised and do not go into insolvency," he

Earlier on Thursday, Future Enterprises completed the sale of its 25 per cent equity in FGIICL to joint venture partner Generali for ₹1,266.07 crore.

FORM A

Public Announcement (Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016) For the attention of the creditors of Birla Tyres Limited

	Relevant Pa			
1	Name of corporate debtor	Birla Tyres Limited		
2	Date of incorporation of corporate debtor	22/11/2018		
3	Authority under which corporate debtor is incorporated/registered			
4	Liability Identification No. of corporate debtor	L25209WB2018PLC228915		
5	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Building, Kolkata - 700001		
6	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	05/05/2022		
7	insolvency resolution process	01/11/2022		
8	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional			
9	resolution professional, as	64J, Linton Street, Beniapukur, Kolkata-700014. e-mail: salam10695@gmail.com		
10	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional			
11	Last date for submission of claims	19/05/2022		
12	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Not Applicable		
13	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	Not Applicable		
14	Relevant Forms and Details of authorized representatives are available at:	Web link: http://www.ibbi.gov.in/home/download Physical Address: NA		

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of Birla Tyres Limited on 05/05/2022. he creditors of Birla Tyres Limited, are hereby called upon to submit their claim

with proof on or before 19/05/2022 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10. The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only

All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall

ndicate its choice of authorised representative from among the three insolvenc professionals listed against entry No.13 to act as authorised representative of the class [specify class] in Form CA – Not Applicable. submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties

Date: 07/05/2022 SEIKH ABDUL SALAM Reg. No. IBBI/IPA-003/IP-N00250/2019-2020/12966

'42% users say e-com apps showing country-of-origin'

Nearly 42 per cent consumers surveyed found e-commerce platforms to be compliant in making country-of-origin information available, said a survey conducted by LocalCircles. The survey also found that the percentage of e-commerce consumers looking for country-of-origin detail has also gone up. The percentage of consumers that looked for the information when shopping online in 2020 was 37 per cent, 43 per cent in 2021 and 51 per cent in 2022, indicating that India's e-commerce consumer is increasingly becoming savvy and is opting to make informed decisions. SHIVANI SHINDE

BLS INTERNATIONAL SERVICES LIMITED

CIN: L51909DL1983PLC016907

Regd. Office: G-4, B-1, Extension, Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044 Tel. No.: 011-45795002 Fax: 011-23755264 Email: compliance@blsinternational.net, Website: www.blsinternational.co







Statement of Audited Consolidated & Standalone Financial Results for the Quarter & Year ended March 31, 2022 Consolidated financial results:-(Rs. in Lakhs) Quarter Ended Year Ended

Particulars	March 31, 2022	December 31, 2021	March 31, 2021	March 31, 2022	March 31, 2021
	Audited	Unaudited	Audited	Aud	lited
Total Income from Operations	25,384.26	22,705.78	14,456.18	84,988.97	47,837.07
Net Profit for the period (before tax & exceptional items)	3,726.09	2,744.52	1,561.84	11,395.85	4,836.52
Net Profit for the period (after tax & exceptional items)	3,520.22	2,829.09	2,297.83	11,120.65	5,033.19
Total Comprehensive Income for the period	3,874.85	3,122.05	2,224.14	12,121.72	4,117.27
Comprising Profit for the period (after tax) and Other					
Comprehensive Income (after tax)]					
Paid Up Equity Share Capital (Face Value Re. 1/- each)	1,024.50	1,024.50	1,024.50	1,024.50	1,024.50
Earning per Share (EPS)(not Annualised)					
a) Basic EPS - Rs.	3.45	2.75	2.29	10.86	4.90
b) Diluted EPS - Rs.	3.45	2.75	2.29	10.86	4.90
Notes:					
. Key Standalone financial Information is as under :-				(R	s. in Lakhs)

Key Standalone financial Information is as under :-				(R:	s. in Lakhs)
	Q	uarter Ende	Year Ended		
Particulars	March 31, 2022	December 31, 2021	March 31, 2021	March 31, 2022	March 31, 2021
	Audited	Unaudited	Audited	Audited	
otal Income from Operations	1,499.23	1,134.56	649.94	4,026.65	2,025.77
et Profit for the period (before tax & exceptional items)	1,356.00	53.32	42.74	1,741.23	2,379.32
et Profit for the period (after tax & exceptional items)	1,258.69	41.99	170.61	1,611.49	2,080.90
otal Comprehensive Income for the period	1,248.67	46.49	262.33	1,614.98	2,178.45
Comprising Profit for the period (after tax) and Other					
omprehensive Income (after tax)]					

2. The above audited results have been reviewed by the Audit Committee of the Board and taken on record at the meeting of the Board of Directors held on 7th May, 2022. The Statutory Auditor of the company have carried out limited review as required under SEBI (Listin Obligations and Disclosure Requirements), 2015 and the related report is being submitted to the concerned stock exchanges.

The COVID-19 situation and the consequent decline in travel and tourism globally have adversely affected the operations of the Group during the FY 2020-21. With governments re-opening the borders and vaccination drives going on full swing globally, we expect the travel and touris business to pick up in the coming financial year i.e. 2022-23. We have undertaken various risk mitigation measures to minimised any adverse impact of COVID-19 and continue to monitor the situation

The figures for the quarter ended March 31, 2022 and March 31, 2021 are the balancing figures between the audited figures in respect of the

full financial year and the published year to date figures upto the third quarter of the respective financial year which were subject to limit review by the statutory auditor of the Group. The Board of Directors at its meeting held on May 7, 2022 have recommended a payment of dividend of Rs. 0.25 per equity share of Rs.

each, subject to the approval of it's shareholders at the ensuing Annual General Meeting. The above is an extract of the detailed format of Quarterly & Year Ended Financial Results filed with the stock Exchanges Under Regulation 3: of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly & Year ended Financia

Results are available on the Stock Exchange websites (<u>www.nseindia.com, www.bseindia.com</u> and <u>www.msei.in</u>) and hosted on the company's website at (www.blsinternational.com)

Place : New Delhi Date : May 7, 2022 Shikhar Aggarwal DIN: 0697572

CONSISTENT AND ATTRACTIVE VALUE PROPOSITION FOR MUTUAL FUND DISTRIBUTORS

A virtual office that offers end-to-end, process driven support and information to help manage and grow their business*



An Independent Retail

*Through PrudentConnect

Wealth Management Services group

www.prudentcorporate.com

₹48,411 cr Mutual Fund AUM

FUNDZ BAZAR

www.fundzbazar.com

13,51,274 Unique Retail Investors

Polic vworld

www.policyworld.com

23,262 Mutual Fund Distributors

WiseBasket

www.wisebasket.com

by means of a prospectus that may be obtained from the Company and that will contain detailed information about the Company and management, as well as financial statements. However, the securities described in this announcement are not being offered or sold in the United States

Our Digital Platforms

15,25,268 Live SIPS

CreditBasket

www.creditbasket.com

35,04,637

Prudent Connect

www.prudentconnect.com

Pan India Branches



110

HIGHLIGHTS

- · Amongst the top mutual fund distributors in terms of AAUM and commission received (Source: CRISIL Report)
- B2B2C platform enables offering diversified financial products
- Offer technology enabled, comprehensive investment and insurance product distribution platforms
- · Track record of innovation and use of technology to improve investor and partner experience and provide a "one-stop shop" solution for MFDs
- · Ranked 3rd in retail segment, in respect of closing assets and 4th in respect of transaction (As per CAMS data, as of December 2021)
- Out of 15.25 lac live SIPs[^], 47.09% are perpetual and the rest have an average maturity of 17 years

Multi product basket

 Mutual Funds
 Stock Broking InsuranceFixed DepositsBondsNPS • PMS • AIF • LAS

^as on December 31, 2021



Prudent Corporate Advisory Services Limited

PRUDENT CORPORATE ADVISORY SERVICES LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares and has filed the RHP with RoC on May 2, 2022. The RHP shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE and NSE at www.bseindia.com, respectively, and is available on the websites of the BRLMs i.e. ICICI Securities Limited at www.icicisecurities.com, www.axiscapital.co.in and www.equirus.com, respectively. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, please see the section entitled "Risk Factors" on page 27 of the RHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision

This announcement does not constitute an offer of securities for sale in any jurisdiction, including the United States, and any securities described in the United States absent registration under the U.S. Securities Act of 1933 or an exemption from registration. Any public offering of securities to be made in the United States will be made

s Sub Broker / Authorised Person of Kotak Securities Limited.					
Sub Broker/ Authorised Person Name	Trade Name	Exchange Registration Numbers of Sub Broker / Authorised Person	Address of Sub Broker/ Authorised Person		
Infinite Investment	Infinite Investment	NSE - AP029121282	828 Opp IOC Building Frontier Colony Adarsh Nagar Jaipur Raj		
Solutions	Solutions	BSE - AP01067301102366	Jaipur 302004		

Please note that above mention Sub Broker (SB)/Authorised Person (AP) is no longer associated with use Any person henceforth dealing with above mention SB/AP should do so, at their own risk. Kotak Securities Ltd. shall not be liable for any such dealing. In case of any queries for the transactions till date, investor are requested to inform Kotak Securities Ltd. within 15 days from the date of this notification, failing whic it shall be deemed that there exists no queries against the above mentioned SB/AP.

kotak^o Kotak Securities Limited. Registered Office: 27 BKC, C 27, G Block, Bandra Kurl Complex, Bandra (E), Mumbai 400051, CIN: U99999MH1994PLC134051, Telephor Oc. +22 43360000, Fax No. +22 67132430. Website: www.kotak.com/ / www.kotaksecurities.com Correspondence Address: Infinity IT Park, Bldg. No 21, Opp. Film City Road, A K Vaidya Marg, Malac East), Mumbai 400097. Telephone No. 42856825. SEBI Registration No: INZ000200137 (Member o SSE, NSE, MSE, MCX & NCDEX), AMFI ARN 0164, PMS INP000000258, and Research Analys NH000000586. NSDL/CDSL: IN-DP-NSDL-23-97.

Coforge कोफोर्ज लिमिटेड (पूर्वतः एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड)

CIN: L72100DL1992PLC048753

कार्यालय : 8, बालाजी एस्टेट, तृतीय तल, गुरू रवि दास मार्ग, कालकाजी, नई दिल्ली — 110019 फोन : 91 (11) 41029297, फैक्स : 91 (11) 26414900 ई-मेल: investors@coforge.com वेबसाइट: https://www.coforge.com

सुचना

एतदद्वारा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं विनियमावली, 2015 के विनियम 29 और 47 तथा अन्य लागू प्रावधानों के अनुसरण में, हम् सचित करने के इच्छक हैं कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक बृहस्पतिवार, 12 मई, 2022 को आयोजित की जाएगी, जिसमें, अन्य के साथ, निम्नलिखित कार्य निष्पादित किए

- 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही / वर्ष हेतु अंकेक्षित वार्षिक लेखा और वित्तीय परिणाम (पृथक्कृत और समेकित दोनों) पर अंकेक्षकों की रिपोर्ट सहित विचार और अनुमोदन ;
- बोर्ड की बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु अंतरिम लागांश, यदि कोई, की घोषणा व संबंध में प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा बोर्ड द्वारा अंतरिम लाभांश, यदि अनुमोदित किया गया, के भुगतान के उद्देश्य हेतु रेकार्ड तिथि भी निर्धारित की जाएगी।

उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट <u>https://www.coforge.com/investors/disclosure</u>s under-listing-regulations पर तथा नैशनल स्टॉक एक्सचेन्ज की वेबसाइट https://www.nseindia.com और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट https://www.bseindia.com पर भी देखी जा सकती है।

वास्ते कोफोर्ज लिमिटेड (पूर्वतः एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड

तिथि: 07 मई, 2022 स्थान : नोएडा

बरखा शम कम्पनी सचिव

हस्ता/

मांग सूचना

एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 13(2) के तहत

एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रवशन कंपनी लिमिटेड ("ईएआरसी") का प्राधिकृत अधिकारी है। प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावर्ल 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर प्राधिकृत अधिकारी ने निम्नलिखि कर्जदार(ओं) को उनको जारी संबंधित मांग सूचना से में उल्लिखित राशियों जो यहाँ नीचे भी दी गई हैं, को चुकता कर के लिए अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सुचना जारी की थी। उपर्यक्त के संबंध में एक बार पुनः कर्जदार को एतदद्वारा इस नोटिस प्रकाशन से 60 दिनों के अंदर ईएआरसी को उक्त कर्जदार(ओं) द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेज यदि कोई हो, के साथ पठित ऋण करार के तहत देय यहाँ नीचे इंगित राशियों को नीचे उल्लिखित तारीख(ओं) से भूगता और / या वसूली की तारीख तक उक्त मांग सूचना में यथाउल्लिखित आगे की ब्याज सहित भुगतान करने लिए सूचि किया जाता है। ऋण के देय पुनर्भुगतान के लिए बतौर प्रतिभूति निम्नलिखित परिसंपत्ति क्रमशः उक्त कर्जदार(ओं) द्वार ईएआरसी को बंधक की गईं हैं।

क्र. सं.	कर्जदार(ऑ) / सह—कर्जदार(ऑ) के नाम / ऋण खाता संख्या	मांग सूचना की तारीख और राशि	ट्रस्ट और एसाइनर का विवरण
1	मेसर्स इंटरलिंक्स ओवरसीज प्रा. लि.	18.04.2022 और	ईएआरसी ट्रस्ट
	(कर्जदार) अपने निदेशकों श्री सुधीर	₹1,79,58,504.30 / —	एससी— 413
	बजाज के माध्यम से (कर्जदार), श्रीमती	(रुपये एक करोड़ उनहासी लाख	और ईसीएफएल
	शैली बजाज और श्री सुधीर बजाज और	अठावन हजार पाँच सौ चार और	
	ऋण खाता सं । DELLAP000001744	तीस पैसा मात्र)	

संपत्ति का विवरण:- गाँव खांडसा की राजस्व संपदा, तहसील और जिला गुडगाँव-122004 स्थि बंधक / इंडस्ट्री बिल्डिंग खाता नं. 286 पर, खसरा नं. 1164 / 2 / 2, माप 0 बीघा 8 विश्वा 0 बिसवंशी पख्ता के सभी भाग व खंड. एम.सी. सीमा में से. बिक्री विलेख/लीज विलेख सं. 9535, बिक्री विलेख े दिनांकित 01.08.06 उप पंजीयक कार्यालय स्थानः गुडगाँव

यदि उक्त कर्जदार उपरोक्तानुसार ईएआरसी को मुगतान करने में असफल रहते हैं तो ईएआरसी अधिनियम की धा 13(4) और लागू नियमों के तहत पूरी तरह से उक्त कर्जदार(ओं) के जोखिम जैसे लागत और परिणामों पर उपर्युक प्रत्याभत परिसंपत्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा। ईएआरसी की पर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री. पड़े या अन्य कि अधिनियम या इसके तहत नियमों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने में सहायता करता है तो वह अधिनियम तहत दिए अनुसार कैद और/या दंड का भागी होगा।

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी हिते एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

SOUTH INDIAN Ban

र्गालयः दिल्ली प्लॉट नं. 20 और 21/1, निकट करोल बा मेट्रो स्टेशन, मेट्रो पिलर नं. 98 के सामने, पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 फोन- 011-45128661,

िदेखें नियम 8(1) कब्जा सूचना

जबिक, साउथ इंडियन बैंक लि. के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और ति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तह प्रदत्ते शक्तियों का प्रयोग कर अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना दिनांकित 16.07.2021 जारी की थी जिसमें कर्जदार **(1) मेसर्स श्री[ँ]गंगादास टैक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज** लिमिटेड, कार्यालय पताः 7098 दुकान नं. 1, जैन मार्केट, गुरू नानक गली, गांधी नगर दिल्ली—110031, अन्य पताः एफ224, फोकल प्वाइंट, फेज VIII, चंडीगढ़ रोड, लुधियाना, पंजाब—141010, अन्य पताः भूतल और प्रथम तल, संपत्ति नं. 465, निकट सब्जी मंडी, झील खुरंजा, दिल्ली–110051, (2) **मेसर्स जीजी फैब्रिक्स** श्री नितिन डावर की प्रॉपराईटरशिप भी एफ224, फोकल प्वाइंट, फेज VIII, चंडीगढ़ रोड, लुधियाना, पंजाब–141010, (3) श्री पंकज आहूजा, निवासी 418104 दुर्गापुरी, हैबोवाल, कलां, लुधियाना, पंजाब–141001, (4) श्रीमती हेमा आहूजा निवासी 4181, 04 दुर्गापुरी, हैबोवाल, कलां, लुधियाना, पंजाब–141001, (5) श्री राकेश कुमार निवासी 74/2, राम नगर एक्सटेंशन, कृष्णा नगर, दिल्ली—110051, (6) **श्री पुरेश कुमार** निवासी 74/2, राम नगर एक्सटेंशन, कृष्णा नगर, दिल्ली—110051, (7) **श्री विनय डावर** निवासी मकान नं. 267, ब्लॉक—ए, राजगुरू नगर, लुधियाना, पंजाब—141012, (8) **श्री नितिन डावर** निवासी मकान नं. 267, ब्लॉक—ए, राजगुरू नगर, लुधियाना, पंजाब–141012, (9) श्रीमती शिवानी कोचर निवासी 74/2, राम नगर एक्सटेंशन, कृष्णा नगर, दिल्ली-110051, अन्य पताः #267, ब्लॉक-ए, राजगुरू नगर, लुधियाना, पंजाब–141012 और (10) **श्रीमती सविता डावर,** निवासी मकान #267, ब्लॉक–ए राजगुरू नगर, लुधियाना, पंजाब–141012, अन्य पताः मकान #504, ब्लॉक–जीएक्स बीआरएस नगर एक्सटेंशन, वर्का मिल्क प्लांट के पीछे, फिरोजपुर रोड, लुधियाना—141012, अन्य पताः 74/2, राम नगर एक्सटेंशन, कृष्णा नगर, दिल्ली-110051 से सूचना उल्लिखित राशि **रु. 12,35,04,243.84 (रुपये बारह करोड़ पैंतीस लाख चार हजार दो सौ** तैंतालीस और चौरासी पैसा मात्र) को आगे की ब्याज और लागतों सहित उक्त सूचना प्राप्ति

की तारीख से 60 दिनों के अंदर चुकता करने के लिए कहा गया। कर्जदार द्वारा राशि अदा न कर पाने पर कर्जदार और सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहरताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित संपत्ति का नीचे तालिका में दी तारीख को सांकेतिक कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार और सर्व जन को सामान्य रूप में संपत्ति से कोई भी लेन-देन करने के लिए आगाह किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन दिनांव 30.04.2022 को राशि रु. 13,24,51,973.21 (रुपये तेरह करोड़ चौबीस लाख इक्यावन हजार नौ सौ तेहत्तर और इक्कीस पैसा मात्र) और इस पर आगे की व्याज और लागतों के लिए साउथ इंडियन बैंक लि. के प्रभार के अधीन होगा। प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय में अधिनियम की धारा 13 की उप—धारा (8) के प्रावधान में कर्जदार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। **उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त** अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत पूर्व में जारी नोटिस दिनांकित

19.02.2022 एतद्द्वारा वापस लिया जाता है।	
संपत्ति का विवरण	कब्जे की तारीख
मद सं.: 1 — स्वर्गीय रमेश कुमार (मृतक और अपने विधिक उत्तराधिकारियों: श्रीमती सविता डावर, श्री विनय डावर, श्री नितिन डावर और श्रीमती शिवानी कोचर द्वारा प्रतिनिधित्व) और श्री सुरेश कुमार (संबोधित नं. 6) के स्वामित्व में राम नगर एक्सटेंशन, गाँव खुरेजी खास, इलाका शाहदरा, विल्ली—110051 स्थित फ्रीहोल्ड आवासीय प्लॉट माप 200 वर्ग गज, संपत्ति नं. 74 का भाग, खसरा नं. 4/39 में सं, इस पर निर्मित आवासीय बिल्डंग, अन्य सभी निर्माणों, सुधारों, भोगाधिकारों और इस पर संपत्ति अधिकारों सिहत, के सभी भाग व खंड, अधिक विवरण एसआरओ VIII—विल्ली में (1) 05.03.1998 को पंजीकृत बिक्री विलेख नं. 560 दिनांकित 19.02.1998 (2) 05.03.1998 को पंजीकृत बिक्री विलेख नं. 561 और (3) 07.06.2006 को पंजीकृत बिक्री विलेख नं. 555 और (3) 07.06.2006 को पंजीकृत बिक्री विलेख नं. 555 और (3) 07.06.2006 को पंजीकृत बिक्री विलेख नं. 755, पूर्व में 20 फुट चौड़ा रोड और पश्चिम में अन्य संपत्ति।	
मद सं.: 2 — स्वर्गीय रमेश कुमार (मृतक और अपने विधिक उत्तराधिकारियों: श्रीमती सविता डावर, श्री विनय डावर, श्री नितन डावर और श्रीमती शिवानी कोचर द्वारा प्रतिनिधित्व), श्री राकेश कुमार (संबोधिती नं. 5) और श्री सुरेश कुमार (संबोधित नं. 6) के स्वामित्व में गौर नानक गली, गांधी नगर, गाँव सीलमपुर, इलाका शाहदरा, दिल्ली—110031 स्थित फ्रीहोल्ड आवासीय संपत्ति माप 50 वर्ग गज, एरिया माप 100 वर्ग गज में से, कुल एरिया माप 218 वर्ग गज में, खसरा नं. 464/362 में से, इस पर अन्य निर्माणों, सुधारों, मौजूदा भोगाधिकारों और इस पर संपत्ति अधिक ।रों सहित, के सभी भाग व खंड, अधिक विवरण एसआरओ—IV, नई दिल्ली/दिल्ली में बिक्री विलेख नं. 1287 दिनांकित 09.05.1989 और	05.05.2022

वसीयत दिनांकित 02.06.1997 में वर्णित और सीमाए:– उत्तर में सार्वज

प्राधिकृत अधिकारी

साउथ इंडियन बैंक लि.

निक रास्ता, दक्षिण में अन्य संपत्ति, पूर्व में कॉमन चारदीवारी और दुक

नं. 7 और पश्चिम में कॉमन चारदीवारी और दुकान नं. 5

दिनांकः 07.05.2022

ऊपर उल्लेखित आंकड़े वर्ष वार तूलना है

बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेस लिमिटेड

CIN: L51909DL1983PLC016907

गंजीकत कार्यालयः जी-४, बी-1, एक्सटेंशन, मोहन को-ऑपरेटिव इंडस्टियल एस्टेट, मथरा रोड, नई दिल्ली-110044 माघ नं.: 011-45795002 , फैक्स: 011-23755264 ईमेल आईडी: compliance@bisinternational.net वेबसाइट: www.bisi





31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिए लेखा परीक्षित समेकित एवं एकल वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण

		समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष				
विवरण	31, मार्च	31, दिसम्बर	31, मार्च	31, मार्च	31, मार्च		
	2022	2021	2021	2022	2021		
	लेखा परीक्षित	अलेखा परीक्षित	लेखा परीक्षित	लेखा प	ारीक्षित		
परिचालन से आय कुल आय	25,384.26	22,705.78	14,456.18	84,988.97	47,837.07		
अवधि के लिए निवल लाभ (कर पूर्व एवं विशिष्ट मदें)	3,726.09	2,744.52	1,561.84	11,395.85	4,836.52		
अवधि के लिए निवल लाभ (करोपरांत एवं विशिष्ट मदें)	3,520.22	2,829.09	2,297.83	11,120.65	5,033.19		
अवधि हेतु कुल परिपूर्ण आय	3,874.85	3,122.05	2,224.14	12,121.72	4,117.27		
[अवधि के लिए परिपूर्ण लाभ (करोपरांत) तथा अन्य		1					
परिपूर्ण आय (करोपरांत) सम्मिलित]							
प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रु. 1/- प्रत्येक)	1,024.50	1,024.50	1,024.50	1,024.50	1,024.50		
प्रति शेयर उपार्जन (ईपीएस) (वार्षिकीकृत नहीं)							
(क) बेसिक ईपीएस-रु.	3,45	2.75	2.29	10.86	4.90		
(ख) डाइलूटेड ईपीएस-रु.	3.45	2.75	2.29	10.86	4.90		
टिप्पणीः							
1 ਸ਼ੁਕੂਰ ਸ਼ਰੂਰ ਰਿਤੀਸ਼ ਕਰਨਾਮੀ ਰਿਸ਼ਤਕਸ਼ਤ ਵੈੱਪ							

. मुख्य एकल वित्तीय जानकारी निम्नानुसार है 31, दिसम्बर 31, मार्च 31, मार्च 31, मार्च 2021 2021 2022 2021 लेखा परीक्षि अलेखापरीक्षित लेखापरीक्षित 1,499,23 2.025.77 परिचालन से आय कल आय 1.134.56 649.94 4.026.65 अवधि के लिए निवल लाभ (कर पूर्व एवं विशिष्ट मदें) 42.74 1 741 23 2 379 32 अवधि के लिए निवल लाभ (करोपरांत एवं विशिष्ट मदें) 41.99 1,258,69 170,61 1,611,49 2,080,90 1.248.67 262,33 1.614.98 [अवधि के लिए परिपूर्ण लाभ (करोपरांत) तथा अन्य परिपर्ण आय (करोपरांत) सम्मिलित]

2. बोर्ड की लेखा परीक्षित कमिटी द्वारा ऊपर्युक्त लेखा परीक्षित परीणामों की समीक्षा की गई है तथा 7 मई, 2022 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में इसे अंगीकृत किया गया है। कंपनी के संविधिक लेखा परीक्षक ने सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटन आवश्यकताएं), 2015 के अधीन यथा वांछि सीमित समीक्षा किया है तथा संबंधित प्रतिवेदन को संबद्ध स्टॉक एक्सचेंजों में दायर किया गया है।

. कोविड-19 की परिस्थिति तथा वैश्विक स्तर पर यात्रा एवं पर्यटन में आई गिरावटी के परिणाम स्वरूप वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान समुह का परिचात प्रभावित हुआ है। सरकारों द्वारा सीमाओं के खोले जाने तथा वैश्विक स्तर पर टीकाकरण के अभियानों के पूरे जोर-शोर से चलने के कारण हमें आगामी वित्त वर्ष यानी 2022-23 में यात्रा एवं पर्यटन में तेजी जम्मीद है।

कोविङ-19 के हर तरह के कुप्रभाव को कम करने के लिए हमलोगों ने कई तरह के जोखिम राहत उपायों को अपनाया है तथा परिस्थिति पर काफी करी से नजर बनाए हए हैं।

. 31 मार्च, 2022 तथा 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही के आंकड़े सम्पूर्ण वित्त वर्ष से संबंधित लेखा परीक्षित आंकडों तथा संबंधित वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही तक प्रकाशित वर्ष से तिथि आंकड़ों के बीच तुलनात्मक आंकड़े हैं, जो समूह के संविधिक लेखा परीक्षक द्वारा सीमित समीक्षा का विषय वस्तु था। है, जो आगामी वार्षिक साधारण बैठक में इसके शेयरधारकों के अनुमोदन पर निर्भर है।

6. ऊपर उल्लिखित विवरण सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं अन्य प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अधीन स्टॉक एक्सचेंजों वे पास दायर तिमाही एवं समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त स्वरूप है। तिमाही एवं वार्षिक वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण स्वरूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों (www.nseindia.com, www.bseindia.com एवं www.msei.in) तथा कंपनी की वेबसाइट (www.blsinternational.com पर लपलब्ध है।

कृते बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेस लिमिटेर

थान : नई दिल्ली तारीख : 7 मई, 2022

माग सूचना

संयुक्त प्रबंध निदेशक डीआईएनः 06975729

प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का

SHRIRAM City

श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड

शाखा कार्यालयः 245–246, दूसरा तल, ओम करम टॉवर, हनुमान नगर–डी, आम्रपाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर—302021, **वेबसाइटः www.shriramcity.in**

जबिक यहाँ उल्लिखित कर्जदारों / सह-कर्जदारों / जमानितयों ने श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड से वित्तीय सहायता प्राप्त की थी। हम कहते हैं कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बावज़द कर्जदारों / जमानतियों ने नियत तारीखों के अनुसार ब्याज और मुलधन राशि के पुनर्भुगतान में विभिन्न चूकें की हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों/दिशा—निर्देशों के अनुपालन में खाते को अनर्जक आस्ति वर्गीकृत किया है। फलस्वरूप, श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सरफासी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत अधोल्लिखित संबंधित तारीखों को मांग सूचनाएँ जारी की जिसमें कर्जदारों / जमानतियों / बंधककर्ताओं से सूचनाओं में उल्लिखित राशि को भुगतान की तारीख तक सूचनाओं में उल्लिखित राशि पर अनुबंधित दर से भविष्य की ब्याज और प्रासांगिक व्ययों, लागत, प्रभारों आदि सहित सूचनाओं की प्राप्ति की तारीख तक 60 दिनों के अंदर भुगतान करने के लिए कहा।

उनके अंतिम ज्ञात पतों पर उनको जारी की गईं सूचनाएँ बिना सुपुर्द हुए वापस लौट आई हैं और इसलिए एतद्द्वारा इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित की जाती हैं।

उपलब्ध समय में प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को मुक्त कराने के लिए अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों में कर्जदार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

सह–कर्जदार(ओं) का नाम	राशि	ऋण राशि	संपत्ति पता
ऋण खाता सं. JAPR1TF1905030005 और JAPR1TF2101040004 मेसर्स सिंगला टैंट हाऊस (प्रोप.— श्रीमती मोनिका सिंगला) 190, श्री गोपाल नगर, गोविन्द मार्ग, महेश नगर, जयपुर—302015 श्रीमती मोनिका सिंगला पत्नी अजय कुमार सिंगला और श्री अजय कुमार सिंगला पुत्र दलीप चंद सिंगला, पी.नं. 61—ए, तेजाजी नगर, 80 फुट रोड, महेश नगर, गांधी नगर, जयपुर—302015 एनपीए कीतारीख— 12 नवंबर, 2021 मांग सूचना की तारीखः 30.04.2022	रु. 6636288/- (रुपये छियासठ लाख छत्तीस हजार दो सौ अठासी मात्र) मोचन निषेध राशि दिनांकित 28.04.2022 के अनुसार निबंधनों व शतों के अनुसार भविष्य की व्याज और प्रभारों सहित	रु. 57,00,000/- (रुपये सत्तावन लाख मात्र) ऋण खाता सं. JAPR1TF190503 0005 का और रु. 65,0000/- (रुपये छह लाख पचास हजार मात्र) ऋण खाता सं. JAPR1TF210104 0004 का	आवासीय मकान— प्लॉट नं. 61—ए, तेजाजी नगर स्कीम, गोपालपुरा, जयपुर, राजस्थान, माप 153.75 वर्ग गज के सभी भाग व खंड। सीमा ब्यौरा:— पूर्व:— अन्य जमीन, पश्चिम— प्लॉट नं.— 61, उत्तर:— प्लॉट नं.— 60, दक्षिण:— रोड
ऋण खाता सं. CDAJ2TF2003180001 और CDAJ2LP2104040001 मेसर्स शिव शक्ति इंजीनियर्स (प्रोप.— श्रीमती रेणु गुप्ता) 280, आमेर विहार तोपदारा, अजमेर—305001 श्रीमती रेणु गुप्ता पत्नी स्व. हर्ष बिहारी गुप्ता 311/31, गुजराती ब्रिक्स कं. के पीछे, पटेल नगर तोपदारा अजमेर—305001 श्रीमती रेणु गुप्ता (मृतक सह—कर्जदार/जमानती अपने विधिक उत्तराधिकारी के माध्यम से) श्री हर्ष बिहारी गुप्ता पुत्र अमर नाथ गुप्ता साक्षी गुप्ता पुत्री स्व. हर्ष बिहारी गुप्ता (मृतक अपने विधिक उत्तराधिकारी के माध्यम से) निकता गुप्ता पुत्री स्व. हर्ष बिहारी गुप्ता (मृतक अपने विधिक उत्तराधिकारी के माध्यम से) हिमांशु गुप्ता पुत्र स्व. हर्ष बिहारी गुप्ता (मृतक अपने विधिक उत्तराधिकारी के माध्यम से) पता— 72, गली नं. 06, सिखवाल आदर्श विद्या के सामने, पटेल नगर, तोपदारा, अजमेर—305001 एनपीए की तारीख— 31.10.2021 पार गुप्ता सुत्री कारीख— 31.10.2021	रु. 6366493 / – (रुपये तिरसठ लाख छियासठ हजार चार सौ तिरानवे मात्र) मोचन निषेध राशि दिनांकित 27.01.2022 के अनुसार और रु. 1664901 / – (रुपये सोलह लाख चौसठ हजार नौ सौ एक मात्र) मोचन निषेध राशि दिनांकित 30.04.2022 के अनुसार निबंधनों व शर्तों के अनुसार भविष्य की ब्याज और प्रभारों सहित	रू.65,00,000/- (रूपये पेंसठ लाख मात्र) ऋण खाता सं. CDAJ2TF2003 180001 का और रू.1470000/- (रूपये चौदह लाख सत्तर हजार मात्र) ऋण खाता सं. CDAJ2LP21040 40001 का	आवासीय संपत्ति— भूमि/ प्लॉट/ एएमसी नं. 21/33, निकट चूना भट्टा, तोपदारा, अजमेर (राजस्थान), माप 316.33 वर्ग गज के सभी भाग व खंड। सीमा ब्यौरा:— पूर्व:— अन्य की संपत्ति, पश्चिम— रोड, उत्तर:— अन्य की संपत्ति, दक्षिण:— रोड

उपरोक्त परिस्थितियों में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उपर्युक्त कर्जदारों, सह-कर्जदारों और / या उनके जमानतियों (जहाँ भी लागू हो) से उपरोक्त बकाया राशियों को भविष्य की ब्याज और लागू प्रभारों सहित इस सूचना प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा इस सूचना की तारीख से 60 दिनों की समाप्ति पर वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) और इसके तहत लागू नियमों के तहत प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का कब्जा लेने सहित प्रत्याभूत परिसंपत्तियों के विरुद्ध आगे के उपाय किए जायेंगे। कृपया नोट करें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के तहत कोई भी कर्जदार प्रत्याभूत ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना

मांग सूचना की तारीखः 30.04.2022

सूचना में बतायी अपनी किसी प्रत्याभूत परिसंपत्ति का बिक्री, पट्टे या अन्य किसी तरीके से हस्तांतरण करने हेतु निषिद्ध होंगे।

हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी दिनांकः 0<u>9.05.2022</u> श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लि.



आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस . मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ('नियम') के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') की धारा 13 (2) के तहत।

जबकि अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के तहत आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आईएफएलएचएफएल) के अधिकृत अधिकारी हैं और नियमों के नियम के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे सूचीबद्ध कर्जदार/सह-कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) (सभी को एक साथ 'दायित्वधारी' के रूप में संदर्भित)/कानृनी वारिस (सों)/कानृनी प्रतिनिधि(यों) को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, संबंधित नोटिस/सूचनाओं की तारीख से . 60 दिनों के भीतर संबंधित मांग सूचना में उल्लिखित राशियों का भुगतान करने के लिए कहते हुए पहले ही अधिनियम की धारा 13(2) के तहत विस्तृत मांग रुचना जारी कर चके हैं। उक्त सचना की प्रतियां पंजीकृत डाक ए.डी. द्वारा तामील की गयी हैं और अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं. और उक्त दायित्वधारी/कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि, यदि वे चाहें, तो सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति

उपरोक्त के संबंध में, एक बार फिर, उक्त दायित्वधारी(यों) / कानूनी वारिस (सों) / कानूनी प्रतिनिधि (यों) को संबंधित सूचना(ओं) की तारीख से 60 दिनों के भीतर कथित दायित्वधारी(यों) द्वारा निष्पादित ऋण समझौते और अन्य दस्तावेजों / लेखों, यदि कोई हो, के साथ पठित नीचे दिए गए कॉलम में नीचे दी गई संबंधित तिथियों से भुगतान और / या वसूली की तारीख तक आगे के ब्याज सहित उनके संबंधित नामों के सामने नीचे दी गई राशि का आईएफएलएचएफएल को भुगतान करने के लिए सूचना दी जाती है। ऋण की देय चुकौती के लिए प्रतिभूति के रूप में, निम्नलिखित प्रतिभूत संपत्ति को क्रमशः उक्त दायित्वधारी(यों) द्वारा आईएफएलएचएफएल के पास गिरवी रखा गया है।

ऋण बाता सं.	दा।यत्वधारा(या)/कानूना वारिस(सों)/कानूनी प्रतिनिधि(यों) के नाम	कुल बकाया देय (रु.)	तिथि तथा एनपीए तिथि	प्रातमूत आस्तिया/अचल सम्पातिया/बंधक सम्पत्तियों का विवरण
NDEL 00419- 200000 825	श्री हरदीप सिंह चन्होक, श्री अमर पाल सिक्का, श्रीमती सोनल सिक्का तथा श्री सुरिन्दर कौर	₹. 30,14,596/-	मांग सूचना की तिथि 07.05.2022 एनपीए 31.01.2022	प्रथम तल का पीछे का भाग, निजी सं. 2, छत के अधिकार रहित, सम्पत्ति सं. 80 पर निर्मित, भिरोची कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड, भेरा एन्कलेव के लेआउट प्लान में, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110087
	. """ " "		0 000	

*सम्बन्धित मांग सूचनाओं में विशेष रूप से उल्लिखित दर पर भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक भावी ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, आकस्मिक व्यय लागतों, प्रभारों आदि सहित। यदि उक्त दायित्वधारी आईएफएलएचएफएल को पर्वोक्त रूप में भगतान करने में विफल रहते हैं, तो आईएफएलएचएफएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत लागत और परिणामों के संबंध में उक्त दायित्वधारी(यों)/कानूनी वारिसों/कानूनी प्रतिनिधि(यों)

के जोखिम पर उपरोक्त प्रतिभूत संपत्ति(यों)/चल संपत्ति(यों) के विरुद्ध पूरी तरह से कार्रवाई करेगा। उक्त अधिनियम के तहत उक्त दायित्वधारी(यों)/कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि(यों) को उक्त प्रतिभूत संपत्ति/चल संपत्ति(यों) को बिक्री के माध्यम से. पट्टे पर या अन्यथा बिना विधि से की पर्व लिखित सहमति के बिना हस्तांतरित करने के लिए निषिद्ध किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो अधिनयम य

अधिकत अधिकार्र

संपर्क पताः डी -16, पहली मंजिल, आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर, प्रशांत विहार, सेक्टर -14 रोहिणी, नई दिल्ली -110085

🚇 आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 ("नियमावली") के नियम 3 के साथ पठित

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत सूचना चुंकि अधिनियम और नियमावली के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आईएफएलएचएफएल) के अधोहस्ताक्षरी मौजदा प्राधिकत अधिकारी ने नीचे दिए गए विवरण अनसार संबंधित सचना(ऑ) की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित मांग सुचना(ऑ) में वर्णित राशियों का भगतान करने के लिए यहां नीचे वर्णित ऋणी(यों) / सह—ऋणी(यों) / गारंटर(ओं) (सभी अलग—अलग या एक साथ ''देयता(ओं) / कानूनी वारिस(ओं) / कानूनी प्रतिनिधि(ओं) के रूप में संदर्भित'') को बुलाने के लिए अधिनियम की धारा 13(2) के तहत विस्तृत मांग सूचना पहलें ही जारी की थी। उक्त सूचनाओं की प्रति पंजीकृत डाक ए.डी. द्वारा भेजी गई थी और अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं और उक्त ''देयता(ओं) / कानूनी वारिस(ओं) / कानूनी प्रतिनिधिओं) यदि इच्छुक हो तो सामान्य कार्यालय घंटों के दौरान किसी भी कार्यदिवस पर अधोहस्ताक्षरी से इसकी प्रति प्राप्त कर सकते हैं . उक्त के संबंध में, एतदुद्वारा एक बार फिर उक्त ''देयता(ओं) / कानूनी वारिस(ओं) / कानूनी प्रतिनिधि(ओं) को संबंधित सूचना(ओं) की तिथि से 60 दिनों के भीतर उक्त देयता(ओं) द्वारा निष्पादित ऋण अनुबंध और अन्य दस्तावेज / लिखित, यदि कोई हो के साथ पठित भुगतान की तिथि और / वसूली की तिथि तक नीचे कॉलम में वर्णित संबंधित तिथियों से नीचे वर्णित अनुसार भावी ब्याज के साथ अपने नामों के विरूद्ध यहां नीचे वर्णित राशि का आईएफएलएचएफएल को भगतान करने के लिए सचित किया जाता है। ऋण के पुनर्भगतान के लिए प्रतिभृति के रूप में, निम्नलिखित प्रतिभूति संपत्ति(यों) को उक्त क्रमशः देयता(ओं) द्वारा आईएफएलएचएफएल को गिरवी रखी गई है।

ऋण खाता सं.	देयता(ओ) / कानूनी वारिस(ओ) / कानूनी प्रतिनिधि(याँ) के नाम	नीचे वर्णित तिथि तक कुल बकाया देय (रु.)*	माग सूचना की तिथि व एनपीए तिथि	प्रतिभूतित संपत्तियों / अचल संपत्तियों / गिरवी संपत्तियों का विवरण
00519-	श्री श्याम लाल खटिक, श्रीमती सीमा देवी खटिक, श्री राजमल खटिक और श्री महावीर सिंह राठौड़	30.04.2022 तक रु. 3,58,641 / — राशि (रुपए तीन लाख अठावन हजार छह सौ इकतालीस केवल)	मांग सूचना की तिथि 07.05.2022 एनपीए तिथि 30.04.2022	पट्टा नं. 01, मिस्सल नं. 14,ग्राम पंचायत बरडोड, पंचायत समिति सुवाना, जिला मिलवाड़ा राजस्थान 311025
LNCHR 00621- 220003 580	श्री रतन सिंह व श्रीमती लाचू बाई	30.04.2022 तक रु. 2,24,547 / – राशि (रुपए दो लाख चौबीस हजार पांच सौ सैंतालीस केवल)	मांग सूचना की तिथि 07.05.2022 एनपीए तिथि 30.04.2022	पट्टा नं. 4471, बुक नं. 89, मिस्सल नं. 83 / 2020—21, ग्राम पंचायत सोमी, पंचायत समिति रश्मि, जिला चितौड़गढ़ राजस्थान 312203

'रंसंबंधित मांग सूचनाओं में वर्णित अधिक विशेष रूप से वर्णित भावी ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, भुगतान की तिथि / या वसूली की तिथि तक व्यय आकस्मिक व्ययों, लागतों, शुल्कों आदि सहित। यदि उक्त देयता(ओं) उपरोक्त अनुसार आईएफएलएचएफएल को भुगतान में असफल रहते हैं तो आईएफएलएचएफएल लागत और परिणाम के लिए उक्त देयता(ओं) / कानूनी वारिस / कानूनी प्रतिनिधि(यों) के पूरी तरह से जोखिम पर उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उक्त प्रतिभूतित संपत्ति(यों) / अचल संपत्ति(यों) के विरूद्ध कार्यवाही करेगा।

उक्त देयता(ओं)∕ कानूनी वारिस∕ कानूनी प्रतिनिधि(यों) आईएफएलएचएफएल की पूर्व लिखित अनुमति के बिक्री, लीज या अन्यथा द्वारा उपरोक्त प्रतिभूति संपत्ति(यो) / अचल संपत्ति(यों) का हस्तांतरण करने के लिए उक्त अधिनियम के तहत प्रतिबंधित हैं। अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बने नियमों को उल्लंघन या विरोध करने वाले व्यक्ति अधिनियम के तहत प्रावधान के अनुसार कारावास और / या जुर्माने का हकदार होगा । आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए

संपर्क पता: डी-16, पहली मंजिल, आईसीआईसीआई बैंक, स्थान : राजस्थान

दिनांक : 07.05.2022

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

के ऊपर, प्रशांत विहार, सेक्टर-14, रोहिणी, नई दिल्ली-110085

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जात) CIN: L65110TN2014PLC097792 गंजीकत कार्यालयः केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट चैन्नई—600031,

टेली: +91 44 4564 4000 फैक्स: +91 44 4564 4022

(वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना)

जाधानयम्, 2002 का वारा 13(2) क अत्पात सूचना।
निम्निलिखित ऋणियों और सह—ऋणियों ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में ज्ञात) नीच वर्णित ऋणियों को ऋण उनकी संबंधित ऋण अनुबंधों की नियम व शतों का पालन करने में असफल हुए हैं और अनियमित हो चुके हैं, उनके ऋण आरबीआई दिशा—निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में ज्ञात)को उनकी देय राशियों निम्निलिखित तालिका में अधिक विशेष रूप से वर्णित संबंधित जारी उनाओं अनुसार वर्णित हैं और उक्त राशियों पर भावी ब्याज भी लागू हो जाएगा और उनसे संबंधित तिथियों से प्रभावी अनुबंध दर के अनुसार

क्र. सं.	ऋण खाता सं.	ऋण का प्रकार	ऋणियों व सह—ऋणियों के नाम	धारा 13(2) सूचना तिथि	13(2) सूचना के अनुसार बकाया राशि	संपत्ति पता
1.	17346979, 16168412, 18744775	संपत्ति पर ऋण व व्यापार ऋण	1. मैसर्स अदाब होटल्स लि. 2. श्रीमती कैलाश चौधरी 3. श्री मनीष चौधरी 4. श्री ओम प्रकाश चौधरी 5. मैसर्स ओम सन्स प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. 6. श्री राजीव चौधरी 7. श्री संजय चौधरी 8. मैसर्स ट्रिनिटी होल्ट्स एंड रिसोट्सं प्रा. लि.	25.04.2022	5,95,48,288.65/-	संपत्ति—1 फ्लैट 102 के कुल निर्मित क्षेत्र के सभी भाग व पार्सल पहली मंजिल पर स्थित, डायमंड टॉवर, माप 2224 वर्ग फुट (सुपर निर्मित क्षेत्र 2780 वर्ग फुट) जुड़े टेरिस बालकनी व एक कवर कार पार्किंग स्पेस बियरिंग नं. 102 के साथ आवासीय कॉम्प्लैक्स ''सोम दत्त के लैंडमार्क'' के डायमंड प्लॉट नं. 4 व 5, जे.डी.ए. ग्रुप हाउसिंग स्कीम, हवा सड़क, सिविल लाइन्स जयपुर, राजस्थान संपत्ति—1 निर्मित क्षेत्र के सभी भाग व पार्सल गैराज (माप 1725 वर्ग फुट, कारपेट क्षेत्र— 1380 वर्ग फुट) के सहित, फ्लैट बियरिंग नं. 14, ग्राउंड फ्लोर व पहली मंजिल पर, सीएटी— । । ।, एम.बी. रोड प्लॉट— ।, साकेत, दिल्ली—110017
2.	17411570	आवास ऋण	1.अमित कुमार 2. अनुपमा अमित कुमार	28.04.2022	22,20,023.41	प्लॉट नं. 51 पर संपत्ति के सभी भाग व पार्सल तीसरी मंजिल, छत अधिकारों के सहित, ब्लॉक— ई, भूमि माप 60 वर्ग यार्ड, खसरा नं.—21 / 8 में से, गांव—मटियाला के क्षेत्र में, ननयक पार्क के रूप में ज्ञात आबादी, उत्तर नगर, नई दिल्ली—110059 व सीमाएं निम्नानुसार : पूर्व : प्लॉट नं. 50, पश्चिम : प्लॉट नं. 51 का भाग, उत्तर : सड़क 20 फुट चौड़ी, दक्षिण : प्लॉट नं. 51 का भाग
3.	4686968 & 5226565	संपत्ति पर ऋण	1. डिम्पू गुप्ता 2. पिंकी गुप्ता	28.04.2022	13,90,786.04	मकान नं. 215 / बी के सभी भाग व पार्सल खसरा नं. 620 का भाग, गांव नूर नगर, परगना— लोनी, तहसील व जिला— गाजियाबाद में स्थित, माप 40 वर्ग यार्ड अर्थात् 33.44 वर्ग मीटर और सीमाएं निम्नानुसार : पूर्व : कमलेश का मकान, पश्चिम : गीता शर्मा का प्लॉट, उत्तर : सड़क :15 वीड़ा, दक्षिण : अशोक व टेकचंद का मकान,
4.	385985	आवास इक्विटी ऋण	1. कमल मदन 2. धन राज 3. अनिल मदन 4. कमल मदन	29.04.2022	7,22,093.09	मकान / प्लॉट नं. 2ए / 61 के सभी भाग व पार्सल क्षेत्र माप 90 वर्ग यार्ड, कुल क्षेत्र माप 233 वर्ग यार्ड, एनआईटी फरीदाबाद, फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित और सीमाएं निम्नानुसार : पूर्व : 40 फुट चौड़ा रोड, पश्चिम : उक्त संपत्ति का भाग, उत्तर : प्लॉट नं. 2ए / 62, दक्षिण : प्लॉट नं. 2ए / 60
5.	16000897	आवास ऋण	1. राजेश कुमार 2. ललिता दिनेश कुमार	29.04.2022	18,81,658.58	आवासीय फ्लैट नं. एस एफ—2 के सभी भाग व पार्सल, दूसरी मंजिल (एम.आई.जी.) (फ्रंट साइड— आरएचएस), (छत अधिकारों के साथ) माप 55.74 वर्ग मीटर (कवर क्षेत्र) प्लॉट नं. बी—1/9 पर निर्मित, "डी.एल.एफ. अंकुर विहार" में स्थित, 0गांव /परगना व तहसील: लोनी, जिला, गाजियाबाद (उ.प.) और सीमाएं निम्नानुसार: पूर्व: प्लॉट नं. बी—1/10 पश्चिम: प्लॉट नं. बी—1/8, उत्तर:

एतद्द्वारा आपको इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर उनसे संबंधित तिथियों से उसपर ब्याज की अनुबंध दर और अन्य लागत, शुल्कों आदि के साथ उक्त तालिका में दर्शाए विवरण अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैंपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी केंक लिमिटेड के रूप में जात) को देय राशियों का भुगतान करने के लिए बुलाया जाता है, असफल होने पर जिसमें अधोहस्ताक्षरी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैंपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी केंक लिमिटेड के रूप में जात) को देय राशि को वसूल करने के लिए यहां उक्त वर्णित गिरवी संपत्तियों के लिए सरफंसी अधिनयम की धारा 13(4) और धारा 14 के अंतर्गत प्रक्रिया करने के लिए बाधित होगा। इसके अलावा आप बिक्री / लीज या अन्यथा द्वारा उक्त प्रतिभूतित संपत्ति को हस्तांतरित करहेरते उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अंतर्गत प्रतिबंधित हैं।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में ज्ञात)

अन्य भूमि, दक्षिण : सड़क 12 मीटर चौड़ा

दिनांकः 09.05.2022

स्थानः दिल्ली एनसीआर

दिनांक: 07.05.2022

स्थानः दिल्ली

उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, वह अधिनियम के तहत प्रदान किए गए कारावास और/या दंड के लिए उत्तरदायी होगा कते आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

हस्ता. / — प्राधिकत अधिकारी

IDFC FIRST Bank

Eol for IDBI Bank, financial bids for SCI by Aug-Sept

PRASANTA SAHU New Delhi, May 8

AFTER THE CONCLUSION of the initial public offer of Life Insurance Corporation this week, the Centre will focus its attention on strategic disinvestment of IDBI Bank and Shipping Corporation of India (SCI).

Expression of interest (EoI) for IDBI Bank and financial bids for SCI are likely to be invited by August-September, sources said.

However, the strategic disinvestment of fuel retailercum-refiner BPCL is not movforward and the government will likely soon reveal a revised plan for the company, the sources said.

The government has set a disinvestment target of ₹65,000 crore for FY23. The ongoing LIC IPO, which is not part of the this year's disinvestment target, will fetch the Centre about ₹20,600 crore for its 3.5% stake sale in the insurer. Floating of EoI for IDBI Bank is next in line after LIC IPO.

Currently, LIC (49.24%) and the government (45.48%) together hold 94.78% stake in IDBI Bank worth about ₹42,000 crore at the current market prices. Both the government and LIC plan to sell majority stake to a buyer and handover the management control.

The department of investment and public asset management is currently holding pre-EoI roadshows to gauge investors'interest.

To make the deal attractive, government approached the Reserve Bank of India (RBI) to consider giving the potential buyer of IDBI Bank some leeway on complying with the regulatory norms for private banks, including a time-bound reduction in promoter holdings. It has also urged the Securities and Exchange Board of India (Sebi) to give some flexibility to the strategic investor in IDBI Bank on the minimum public float

norm for listed companies. As part of the SCI disinvest-

ment process, the government is hiving off Shipping House building in Mumbai, MTI (Maritime Training Institute), Powai and some other noncore assets of the company. "The process of the

demerger is time-consuming. We would be ready to invite financial bids in 3-4 months," an official said. The board of SCI recently approved an updated demerger scheme for hiving off the non-core assets of SCI to Shipping Corporation of India Land and Assets Ltd (SCILAL). As per the balance sheet of

SCI, the value of non-core assets held for demerger as of March 31, 2022, stood at ₹2.392 crore. In March 2021, the government had received multiple bids for acquiring the government's 63.75% stake in SCI. Even though the current market prices of the government's stake in SCI is worth ₹3,700 crore, it is not clear how much the government will raise after hiving of non-core assets to the demerged entity.

ender No.

Name of Work

stimated Cost

ompletion Period

arnest Money Deposit

ender Processing Fee

ost of Tender Document

ate of Sale of Tender (online)

ate & Time of Opening of Tender 01/06/2022 at 11:30 hrs.

advertisement shall not be issued for the same.

Price cap for KG-D6 gas to rise in October: Reliance Reliance and BP, Roy said,

currently produce about 20% of India's total domestic production and the MJ field would raise to 30% in the next 20 months.

After production at the MJ field starts, production is expected to reach 30 mmscmd in 2023. "We have now drilled all the wells and we expect to undertake the lower and upper completions over the next few months, "he said.

up now, they added.

Name of Corporate Debtor

Incorporated / Registered

No. of corporate debtor

resolution professional

Date of Incorporation Of Corporate Debtor

Authority Under Which Corporate Debtor Is

Corporate Identity No Limited Liability Identification

Address of the Registered Office and Principal

Insolvency commencement date in respect of Corporate Debtor

Estimated date of closure of insolvency resolution process

Name and registration number of the

insolvency professional acting as interir

Address and e-mail of the interim resolution

professional, as registered with the Board

Address and e-mail to be used for

correspondence with the Interim

Last date for submission of claims

by the Interim resolution professional

a class (Three names for each class)

(a) Relevant Forms and

against entry No: 10.

Date:09-05-2022

Place: Hyderabad

of sub-section (6A) of section 21, ascertained

Names of Insolvency Professionals identified to

act as Authorised Representative of creditors in

Classes of creditors, if any, under clause (b) Not Applicable (as observed till date)

(b) Details of authorized representatives are available at: Physical Address: Not Applicable

creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

.IMITED on 27-04-2022. (Order Copy Received on 07.05.2022)

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, Hyderabad Bench has ordere

he commencement of Corporate Insolvency Resolution Process of M/s. VANTA BIOSCIENC

The creditors of M/s. VANTA BIOSCIENCE LIMITED are hereby called upon to submit their claim

with proof on or before 21-05-2022 to the Interim Resolution Professional at the address mentione

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All oth

Resolution Professional

Office (if any) of Corporate Debtor

The company is also carrying out exploration activities in block KG-DW1, which is contiguous to D6.Reliance and its partner BP of UK produce about 18 million standard cubic meters per day of gas from two sets of new fields in the eastern offshore deep-sea block KG-D6.

Green energy purchases likely to be mandatory

KERALA WATER AUTHORITY e-Tender Notice

Tender No.: 08/2022-23/SE/PHC/PKD. CWSS to Perumatty, Pattanchery

Elappully, Nalleppilly Panchayaths in Palakkad district - Phase V - Supplying and

aying balance distribution network and providing balance FHTCs (2140 nos.) in

KWA-JB-GL-6-162-2022-23 Superintending Engineer, PH Circle, Palakkad

NOTICE INVITING E - TENDER

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड

CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.

Navratna Company (A Govt. of India Undertaking)

CON/EP/Area-I/Zonal (NCR)/2022-23

Rs.2,33,815/- (through e-payment)

For financial eligibility criteria, experience with respect to similar nature of work, etc. please refer to

letailed tender notice available on website www.concorindia.com, but the complete tender documen

an be downloaded from website www.tenderwizard.com/CCIL only. Further, Corrigendum

Addendum to this Tender, if any, will be published on website www.concorindia.co.in

www.tenderwizard.com/CCIL and Central Procurement Portal (CPP) only. Newspaper press

Annual Maintenance Contract for Day to Day Civil Works at ICD

Dadri, ICD/Moradabad, ICD/Agra, ICD/Kanpur, ICD/Kota

24 Months from the 15" day after date of issue of Letter of Acceptance

Group General Manager (Engg.)

Rs. 4000/- plus GST as applicable (through e-payment)

09/05/2022 (11:00 hrs) to 30/05/2022 (up to 17:00 hrs)

Tender fee: ₹11,800. Last date for submitting tender: 27-05-2022 03:00 pm

Elappully Grama Panchayath (Zone - I part II). EMD: ₹2,00,000.

Website: www.kwa.kerala.gov.in, www.etenders.kerala.gov.in

ONCOR invites E-Tender in Single Packet System of tendering for the following work:

"Now that India has updated its 2030 commit-

FROM THE FRONT PAGE

RL

ments under the Paris Agree-"There is a clear push ment, there is more urgency from the government in to reduce dependence on favour of renewable sources. coal. Since RPO compliance We are seeing strong demand for hydro projects in the has been found quite poor, the government is now revisstates where it is viable, and ing the tariff policy to make that includes Himachal them mandatory," said a Pradesh, Uttarakhand, Delhi-based executive from Jammu & Kashmir and the the power finance sector. northeastern states," said a Some of India's largest consenior executive with a large glomerates are ramping up public-sector bank. Historirenewable capacity in the cally, the exposure of the hydro and wind power segbanking sector to alternative ments, bankers said. Solar sources of energy has been limited. According to a March energy has been one of the 2022 paper by Reserve Bank leading sectors for banks in of India (RBI) researchers, as the last few years in terms of of March 2020, only about loan demand, but capex 8% of the bank credit demand for hydro and wind segments is starting to firm deployed in the electricity industry was towards non-

M/s.VANTA BIOSCIENCE LIMITED

NO.02/G/308/G NO.3/FF/SF/1-20-248, UMAJAY COMPLEX

RASOOLPURA, SECUNDERABAD, Hyderabad TG 500003

Flat No. 101, Sheshadri Towers G-16A, Madhura Nagar

Yousuf Guda, Hyderabad - 500038 Telangana

Flat No 104, Kavuri Supreme Enclave, Kavuri Hills

21-05-2022 (14 days from the date of order received)

Weblink:https://www.ibbi.gov.in/home/downloads

Kurapati Singarayya Chowdar

Interim Resolution Profession

IBBI/IPA-003/IP-N00149/2017-2018/1172

E-Mail: kurapatichowdary55@gmail.com

Madhapur, Hyderabad-500 033, Telangana

E-Mail: cirp.vantabioscience@gmail.com

Not Applicable

27/04/2022 (Order Copy Received on 07.05.2022)

IBBI/IPA-003/IP-N00149/2017-2018/11728

Kurapati Singarayya Chowdary

FORM A

PUBLIC ANNOUNCEMENT

[Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India

(Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016]

RELEVANT PARTICULARS

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF M/s. VANTA BIOSCIENCE LIMITED

29/04/2016

RoC-Hyderabad

Registered Office:

L74999TG2016PLC109280

conventional energy production. The ratio varied from 17% in Punjab to a measly 0.1% in Odisha. The share of non-conventional energy in utility sector credit was higher for private banks at 14.8%, as against only 5.2% in public sector banks (PSBs). Of late though, thermal

power has been losing favour with banks and the lending taking place in the coal-based power segment is largely in the form of refinance transactions. Bankers are also wary of coal-based projects from an asset quality standpoint after the grim experience of the last bad loan cycle.

power plants financed in the late 2000s went bad in the absence of power purchase agreements. State Bank of India (SBI) is now closely assessing its exposure to thermal power projects. (With inputs from Vikas

A number of thermal

Srivastava in Mumbai)

BLS INTERNATIONAL SERVICES LIMITED CIN: L51909DL1983PLC016907

Regd. Office: G-4, B-1, Extension, Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044 Tel. No.: 011-45795002 Fax: 011-23755264 Email: compliance@blsinternational.net. Website: www.blsinternational.com



Statement of Audited Consolidated & Standalone Financial Results for the Quarter & Year ended March 31, 2022



Figures above dipict year on year comparision

			(R:	s. in Lakhs)
Q	uarter End	Year Ended		
March 31, 2022	December 31, 2021	March 31, 2021	March 31, 2022	March 31, 2021
Audited Unaudited		Audited	Audited	
25,384.26	22,705.78	14,456.18	84,988.97	47,837.07
3,726.09	2,744.52	1,561.84	11,395.85	4,836.52
3,520.22	2,829.09	2,297.83	11,120.65	5,033.19
3,874.85	3,122.05	2,224.14	12,121.72	4,117.27
	March 31, 2022 Audited 25,384.26 3,726.09 3,520.22	March 31, 2022 31, 2021 Audited Unaudited 25,384.26 22,705.78 3,726.09 2,744.52 3,520.22 2,829.09	31, 2022 31, 2021 31, 2021 Audited Unaudited Audited 25,384.26 22,705.78 14,456.18 3,726.09 2,744.52 1,561.84 3,520.22 2,829.09 2,297.83	Quarter Ended Year March 31, 2022 December 31, 2021 March 31, 2021 March 31, 2022 Audited Unaudited Audited Audited Audited 25,384.26 22,705.78 14,456.18 84,988.97 3,726.09 2,744.52 1,561.84 11,395.85 3,520.22 2,829.09 2,297.83 11,120.65

[Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] 1,024.50 1,024.50 Paid Up Equity Share Capital (Face Value Re. 1/- each) 1,024.50 1,024.50 1,024.50 Earning per Share (EPS)(not Annualised) (a) Basic EPS - Rs. 2.75 3.45 2.29 10.86 (b) Diluted EPS - Rs. 2.75 10.86 3.45 2.29 4.90 1. Key Standalone financial Information is as under (Rs. in Lakhs Quarter Ended Year Ended March March December March Particulars 31, 2021 31, 2021 31, 2022 31, 2022 Unaudited Audited Audited Audited

March 31, 2021 Total Income from Operations 1,499.23 1,134.56 649.94 4,026.65 2,025.77 2,379.32 1,356.00 53.32 42.74 1,741.23 Net Profit for the period (before tax & exceptional items) 1,258.69 41.99 170.61 1,611,49 2,080.90 Net Profit for the period (after tax & exceptional items) 46.49 Total Comprehensive Income for the period 1,248.67 1,614.98 2,178.45 [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] 2. The above audited results have been reviewed by the Audit Committee of the Board and taken on record at the meeting of the Board of

Directors held on 7° May, 2022. The Statutory Auditor of the company have carried out limited review as required under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015 and the related report is being submitted to the concerned stock exchanges. The COVID- 19 situation and the consequent decline in travel and tourism globally have adversely affected the operations of the Group during

the FY 2020-21. With governments re-opening the borders and vaccination drives going on full swing globally, we expect the travel and tourism business to pick up in the coming financial year i.e. 2022-23. We have undertaken various risk mitigation measures to minimised any adverse impact of COVID-19 and continue to monitor the situation

The figures for the quarter ended March 31, 2022 and March 31, 2021 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year and the published year to date figures upto the third quarter of the respective financial year which were subject to limited review by the statutory auditor of the Group.

The Board of Directors at its meeting held on May 7, 2022 have recommended a payment of dividend of Rs. 0.25 per equity share of Rs. 1 each, subject to the approval of it's shareholders at the ensuing Annual General Meeting

The above is an extract of the detailed format of Quarterly & Year Ended Financial Results filed with the stock Exchanges Under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly & Year ended Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com, www.bseindia.com and www.msei.in) and hosted on the company's website at (www.blsinternational.com). For BLS International Services Limited

Place: New Delhi Date: May 7, 2022

Shikhar Aggarwal Jt. Managing Director DIN: 06975729

BSE LIMITED

25th Floor, P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001

CIN No: L67120MH2005PLC155188



PUBLIC NOTICE

In terms of Regulation 22(3) of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations ("Regulations") and as per the rules made under Section 21A of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and the Rules, Bye-Laws and Regulations of BSE Limited ("the Exchange"), NOTICE is hereby given that the Exchange proposes to delist the undermentioned 22 companies from the Exchange as the said companies have, inter alia, made out grounds for delisting of their securities i.e. the trading in the securities of the said companies has been under suspension for a period of more than six months on account of non-compliance with various clauses of the erstwhile Listing Agreement / SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

While the Exchange has issued a Notice to the companies at their last known address as per Exchange records, asking the said companies to SHOW CAUSE as to why the Exchange should not proceed with the compulsory delisting of the companies, they have either failed to reply to the Exchange communication in the specified manner or failed to take steps for completion of revocation of suspension in the trading of their securities or sought compulsory delisting. The list of these companies along with their last known

Sr. No.	Scrip Code	Company Name	Address
1	530261	Arcuttipore Tea Company Ltd	4A, MMS Chambers 1 st Floor, Council House Street, Kolkata – 700001, West Bengal
2	517481	Artech Power & Trading Ltd	101 - 104, 1 st Floor Tower A, Peninsula Corporate Park G.K. Road, Lower Parel (West), Mumbai – 400013, Maharashtra
3	526925	Bobshell Electrodes Ltd	802, "Swagat" Building Nr. Lal Bunglow, C. G. Road, Ahmedabad – 380006, Gujarat
4	539335	CHPL Industries Ltd	Shop No 136-137/ 8 & 9, 3 rd Floor Empire Square, Baben Ta-Bardoli, Sura – 394602, Gujarat
5	512135	Ensa Steel Industries Ltd	43, Atlanta Building, Nariman Point, Mumbai – 400021, Maharashtra
6	509550	Gammon India Ltd	Hamilton House, Heredia Road, Ballard Estate, Mumbai – 400001, Maharashtra
7	531953	GCCL Construction & Realities Ltd	A-115, Siddhi Vinayak Towers B/h. DCP Office, off S.G. Highway, Makarba Ahmedabad – 380051, Gujarat
8	539864	Ghushine Fintrrade Ocean Ltd	Meznine Floor, M 12 Nilkamal Apartment, Mahatmawadi, Salabatpura, Surat – 395003, Gujarat
9	504369	Grandma Trading & Agencies Ltd	501, 5th Floor, VV's Vintage Boulevard Rajbhavan Road, Somajiguda, Hyderabad – 500082, Telangana
10	531840	IEC Education Ltd	M - 92 Connaught Place, New Delhi – 110001, Delhi
11	506016	JRI Industries & Infrastructure Ltd	1, Borkar Compound, W E Highway, Borivali (E), Mumbai – 400066, Maharashtra
12	539014	Kalpa Commercial Ltd	405, FIE Parpatganj Industrial Area, Office No. 2, LGF/R2 New Delhi – 110092, Delhi
13	540812	Kids Medical Systems Ltd	C-101, Signor Residency, B/H-Sanjay Tower, Shyamal Char Rasta Satellite, Ahmedabad – 380015, Gujarat
14	513648	Marg Projects and Infrastructure Ltd	Sri Sai Subhodaya Apartments, Basement No. 57/2B, East Cost Road, Thiruvanmiyur, Chennai – 600041, TamilNadu
15	519560	Neha International Ltd	501, Manbhum Jade Towers, Rajbhavan Road, Hyderabad 500082 - Telangana
16	521009	Niwas Spinning Mills Ltd	406/A, Chatti Galli, West Mangalwar Peth, Solapur – 413002, Maharashtra
17	500394	Solid Carbide Tools Ltd	A-735, TTC Industrial Area, Khairne, MIDC Thane, Belapur Road, Navi Mumbai – 400705, Maharashtra
18	515115	STI Granite India Ltd	Suite-B Lakeview Farm, Ramagondanahalli Varthur, Main Road, Bengaluru – 560066, Karnataka
19	521038	Tamilnadu Jai Bharath Mills Ltd	212 Ramasamy Nagar, Aruppukottai – 629159, TamilNadu
20	532131	Triumph International Finance India Ltd	10 Oxford Centre, Shroff Lane, Colaba Causeway, Colaba Mumbai – 400005, Maharashtra
21	519303	Trombo Extractions Ltd	18-C A. B. Road, Tejpur Bridge, Indore – 452001, Madhya Pradesh
22	526941	Vaishno Cement Company Ltd	14B, Ramchandra Moitra Lane, Kolkata - 700005, West Bengal

The details of the Management / Directors of the abovementioned companies, as per the records of the Exchange, are available on the Exchange website www.bseindia.com under the tab "Corporate Information" under 'Management' on the individual company's webpage. In case of any change in the details of the Management / Directors as compared to the details posted on the BSE website, the same should be communicated immediately to the Exchange but not later than 15 working days from the date of this notice, in the manner specified herein below.

All concerned are advised to note that the consequences of compulsory delisting which were mentioned in the said Notice would include the following:-

- These companies would cease to be listed on the stock exchange and would be moved to the Dissemination Board of the
- 2. As per SEBI Delisting Regulations, the following consequences of compulsory delisting would apply to the companies not under liquidation / liquidated:
 - In terms of Regulation 24 of Delisting Regulations,
 - 1. the delisted company, its whole-time directors, its promoters and the companies which are promoted by any of them shall not directly or indirectly access the securities market or seek listing for any equity shares for a period of ten years from the date of such delisting.
 - In case of such companies whose fair value is positive –
 - a. such a company and the depositories shall not effect transfer, by way of sale, pledge, etc., of any of the equity shares held by the promoters / promoter group and the corporate benefits like dividend, rights, bonus shares, split, etc. shall be frozen for all the equity shares held by the promoters/ promoter group, till the promoters of such company provide an exit option to the public shareholders in compliance with sub-regulation (3) of regulation 23, as certified by the concerned recognized stock exchange;
 - b. the promoters and whole-time directors of the compulsorily delisted company shall also not be eligible to become directors of any listed company till the exit option as stated in clause (a) above is provided.
 - As per the provisions of Regulation 23(3) of the SEBI Delisting Regulations.
 - 3. The promoter of the company shall acquire delisted equity shares from the public shareholders by paying them the value determined by the valuer within three months of the date of delisting from the recognized stock exchange, subject to their option of retaining their shares. Explanation: For the purposes of sub-regulation (1),
 - a. 'valuer' means a chartered accountant within the meaning of clause (b) of section 2 of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), who has undergone peer review as specified by the Institute of Chartered Accountants of India constituted under that Act, or a merchant banker appointed to determine the value of the delisted equity shares;
 - b. value of the delisted equity shares shall be determined by the valuer having regard to the factors mentioned in regulation 15.
- 3. As per directions received from SEBI with regard to companies under liquidation / liquidated:
- For all companies which are 'Under Liquidation / Liquidated' and which are compulsorily delisted, the consequences of compulsory delisting as provided for in Regulation 24(1) of the SEBI Delisting Regulations, 2009 would not apply to the companies / promoters / whole time directors of these companies if the date of the appointment of provisional liquidator or the order of winding up is prior to the date of compulsory delisting.

In case, any concerned person is desirous of making any representation to the Exchange, they may do so in writing with all supporting documents, within 15 working days of the date of this Notice. Scanned copy of the signed representation containing complete contact details (email id, address and phone number) of the person/s making the representation/s should be mandatorily emailed to the specified email id i.e., bse.delistscn@bseindia.com.

Any anonymous representation(s) would not be considered valid.

Kindly note that representations that are sent through any mode of communication other than to the designated email id would not be construed as valid representation and thus, will not be considered by the Exchange.

> For and on behalf of BSE Ltd. May 9, 2022





फॉर्म नं. सीएए.2 (धारा 230(3) एवं नियम ६ एवं 7 के अनुसरण में) राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ, कोर्ट नं. ६. नई दिल्ली के समक्ष कम्पनी आवेदन सं. सीए(सीएए)-10/(पीबी)/2022 कम्पनी अधिनियम, 2013 के मामले में

कम्पनी अधिनियम, 2013 की घारा 230-232, घारा 66 एवं अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (समझौता, व्यवस्था एवं समामेलन) नियम, 2016 के अंतर्गत आवेदन

निम्नलिखित के बीच समामेलन की योजना के मामले मे दुढेज हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेडआवेदक कम्पनी नं. 1 / हस्तांतरणकर्ता कम्पनी स्टार ढेंटल सेंटर प्राइवेट लिमिटेडआवेदक कम्पनी नं. 2 / हस्तांतरिती कम्पनी

उनके संबंधित शेवर धारक दक्षेज हेल्यकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (CIN:U85100DL2009PTC386284), कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत गतित एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय दूसरा तल, न्यू ब्लॉक, आर के खन्ना टेनिस स्टेडियम, डीएलटीए कॉम्प्लैक्स, 1 अफ्रीका एवेन्यू नई दिल्ली-110029 में है

स्टार डेंटल सेंटर प्राइवेट लिमिटेंब (CIN:U85120DL2011PTC216123), कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय दूसरा तल, न्यू ब्लॉक, आर के खन्ना टेनिस स्टेडियम, डीएलटीए कॉम्प्लैक्स, 1 अफ्रीका एवेन्यू नई दिल्ली-110029 में है

.....(आवेदक कम्पनी 2) आवेदक कम्पनी 2 के प्रतिभूत एवं प्रतिभूत लेनदारों की बैठक की सूचना का विद्यापन

एतदद्वारा सचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 230 से 232 एवं 66 तथा अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (समझौता, व्यवस्था एवं समामेलन) नियम, 2016 के अनुसरण में माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ, कोर्ट नं. 6 (''एनसीएलटी'') ने कम्पनी आवेदन सं. सीए (सीएए)-10 / (पीबी) / 2022 में अपने आदेश दिनांक 6 अप्रैल, 2022 के माध्यम से स्टार ढेटल सेंटर प्राइवेट लिमिटेड (वहां के बाद "हस्तांतरिती कम्पनी" के रूप मे संदर्भित) के साथ ट्रहेज हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (यहां के बाद ''हस्तांतरणकर्ता कम्पनी'' के रूप में संदर्भित) तथा उनके संबंधित शेयरपारकों के बीच समामेलन की योजना ("योजना") पर विचार करने और यदि जरूरी हुआ तो संशोधन या बिना संशोधन उसे अनुमोदित करने के प्रयोजन हेतु आवेदक कम्पनी-2 के प्रतिभृत एवं अप्रतिमृत लेनदारों की बैठक आयोजित करने के निर्देश

कियत आदेश एवं निर्देश के अनुसरण में आगे एतदद्वार सचित किया जाता है कि आवेदक कम्पनी-2 के प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत लेनदारों की अलग-अलग बैठक अधिकरण की निगरानी में निम्नानुसार आयोजित की

화 . ゼ.	बैठक का वर्ग	बैठक की तिथि	समय (आईएसटी)	बैठक का पता
10	प्रतिभूत लेनदार	शनिवार, 11 जून, 2022	प्रातः 11.00 बजे	नेश्चनल स्पोर्ट्स बलब ऑफ इंडिया मधुरा रोड, नई दिल्ली—110001
2	अप्रतिमृत लेनदार	शनिवार, 11 जून, 2022	प्रात : 11.30 बजे	नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया मधुरा रोड, नई दिल्ली-110001

योजना की प्रतियां और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230(3) एवं धारा 102 के अंतर्गत व्याख्यात्मक विवरण आवेदक कम्पनी-2 के कार्यालय पते दूसरा तल, न्य ब्लॉक, जार के खन्ना टेनिस स्टेडियम, डीएलटीए कॉम्प्लैक्स, 1 अफ्रीका एवेन्यू नई दिल्ली-110029 से नि:शुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं। बैठक में उपस्थित होने एवं वोट देने का पात्र व्यक्ति

बशर्ते कि स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिवत हरताक्षरित निर्धारित प्रारूप में सभी प्रॉक्सी आवेदक कम्पनी−2 के पंजीकृत कार्यालय में उपरोक्त कथित बैठक के निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पूर्व पहुंच जाएं। फॉर्म ऑफ प्राक्सी आवेदक कम्पनी-2 कें पंजीकृत कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। अधिकरण ने कथित बैठक के लिए श्री आशा राम सिहाग को अध्यक्ष, श्री नरेश मुंजाल, चार्टर्ड एकाउंटेंट को वैकल्पिक अध्यक्ष एवं श्री जी पी मदान, अधिवक्ता को

पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। (क) कम्पनी अधिनियम, 2013 की घारा 230(4) के साथ पठित धारा 108 एवं 110; (ख) कम्पनी (समझौता, व्यवस्था एवं समामेलन) नियम, 2016 के नियम (3)(गप); (ग) कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 22 के साथ पठित नियम 20 एवं अन्य लागू प्रावधानों के अनुपालन में आवेदक कम्पनी-2 ने बैठक के स्थान पर बैलेंट / पोलिंग पेपर द्वारा वोटिंग की सुविधा प्रदान की

आज दिनांक : 09.05.2022 पंजीकृत कार्यालय : दूसरा तल, न्यू ब्लॉक, आर के खन्ना टेनिस स्टेडियम, डीएलटीए कॉम्प्लैक्स, 1 आफ्रीका एवेन्यू

> कम्पनी सचिव स्टार ढेंटल सेंटर प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरिती कम्यनी)

दि फेडरल बैंक लि. फेडरल बैंक शाखा कार्यालयः 5ही/6 बीपी, नीलम रेलवे रोड. न्यु इंडस्ट्रियल टाऊन, फरीदाबाद, हरियाणा-121001 आपका सम्पूर्ण वैकिंग भागीदार

सोने की निजी विक्री हेत् सूचना सभी सम्बन्धितों की जानकारी हेतू एतदद्वारा सुचना दी जाती है कि बैंक की नीचे वर्णित शाखा में स्वर्ण ऋण खातों में निम्नलिखित स्वर्ण आभूषण गिरवी रखे गए थे, जो छड़वाने के लिए अतिदेय हो चके हैं और बार-बार सूचना देने पर नियमित नहीं किए गए हैं, अतः निम्नलिखित दर्शाये अनुसार 25/05/2022 को या उसके उपरान्त शाखा द्वारा विक्री हेत् रखे जाएंगेः

शाखा/स्यानः 5डी/6 बीपी	, नीलम रेलवे रोड, न्यू	इंडस्ट्रियल टाऊन, फरीदाब	द, हरियाणा-121001
नाम कार्तिकेय यादव	खाता सं.	नाम सीमा	खाता सं.
	13816100048754		13816400018515
विशाल	13816100048887	योगेश सोनी	13816400018622
राजिंदर कुमार हसीजा	13816400017632	सागर	13816100049851
राजिंदर कुमार हसीजा	13816400019067	रजनीश बिंद्रा	13816100047194
राजिंदर कुमार हसीजा	13816400022327	बंटी सैनी	13816400022103
मीना रोहिल्ला	13816400017822	गिरधारी	13816400022244
जसमीत कौर	13816400021568	रोहताश	13816400021030
सागर चंदेला	13816100049117	कमल कपूर	13816400022277
भूपिंदर सिंह	13815600005462	सीमा चौबे	13816400022335
विवेक	13816100051279	नरेश कुमार	13816400022368
विकास ग्रोवर		सुंदर	13816100050032
सागर नस्वा	13816100046642	मोहेंदर सिंह	13816400022418
अरुणा गुंड	13816400018028	पुनीत दुआ	13816400022400
राजकुमार	13816400011643	मोहेंदर सिंह	13816400022491
पुनम रानी	13816400018168	भावना कुकरेजा	13816400018853
शेख सेराज	13816400020800	दिलीप कुमार सोनी	13816100050248
वीना भाटिया	13816100049448	अविनाश कुमार	13816100050297
	13816400018267	इंद्र बाला कृष्णन	13816400013060
किरण पुंज	13816400021857	कृष्ण अरोड़ा	13816400018903
रितु सचदेवा	13816100046931	शुभम भड़ाना	13816100050370
आशा कटारिया	13816400021899	गगन दीप कौर	13816400021188
भीम सिंह चौहान	13816100047897	गौरव गुलाटी	13816100051378
गौरव दुसेजा	13816100049299	अभिनव गोयल	13816100053622
योगेन्दर	13816100048390	सुकुमारन	1301010003022
सौरव पॉल चौधरी	13816100049653	थंकप्पन मेनन	13816100053333
स्थानः फरीदाबाद दिन	客: 09.05.2022	शाखा प्रबंधक, (दि	फेडरल बैंक लि.)

प्ररूप संख्या आईएनसी-25ए पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में संपरिवर्तन के लिए क्षेत्रीय निदेशक, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, Company Application No. 194/66/PB/2021

उत्तरी क्षेत्र के समक्ष, नई दिल्ली कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम ४१ के मामले में

कॉक्स डिस्टिलरी लिमिटेड (CIN: U74899DL1995PLC069582) जिसका पंजीकृत कार्यालयः सी-115, मानसरोवर गार्डन, भूतल, नई

दिल्ली-110015 में रिथत है, के मामले में

on the 31st day of July 2021 by the Company is available at the registered office of the Company situated at House एतदद्वारा आम जनता को सुचित किया जाता है कि No. 63, First Floor, H-3 Block, Vikaspuri, यह कम्पनी उपरोक्त नियमावली के साथ पठित New Delhi - 110018 for inspection on all कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केंद्र working days during 11:00 A.M. to 4:00 P.M. सरकार के पास एक आवेदन करने तथा ऐसे until May 18, 2022. रूपांतरण को प्रभावी करने के लिये कम्पनी को सक्षम बनाने के लिए बृहस्पतिवार, 5 मई, 2022 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष

कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन / स्थिति के कारण यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होने की संभावना हैं. तो वह व्यक्ति, इसका कारण देते हुए आपत्ति हलफनामा में उल्लेख करते हुए, जिसमें उनके हित / विपक्ष के आधार हों, इस सूचना के छपने के चौदह दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली- 110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कंपनी को पंजीकत पते पर सी-115, मानसरोवर गार्डन, भूतल, नई दिल्ली-110015 में भी भेज दे।

प्रस्ताव के अनुसार कंपनी को एक प्राइवेट लिमिटेड

कंपनी में रूपांतरित करने की इच्छक है।

कृते कॉक्स डिस्टिलरी लिमिटेड हस्ता / -

जगदीश चंद अग्रवाल (निदेशक) तिथि : 09.05.2022 डीआईएन:01898337 स्थानः नई दिल्ली

Punjab & Sind Bank पंजाब एण्ड सिंध बैंक *Where service is a way of life* बी.ओ.-पहाडगंज, 5∕1, डी.बी. गुप्ता रोड, पहाडगंज, नई दिल्ली-110055

टेली.: 0121-23617738, ई-मेल: d0019@psb.co.in

कब्जा सूचना (अचल सम्पात क लिय) [दख नियम 8(1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत पंजाब एंड सिंध बैंक. के प्राधिकत अधिकारी के रूप में तथ प्रितिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सुचना तिथि 01.02.2022 जारी कर ऋणधारकों एवं गारंटरों 1) राजेश गप्ता. पत्र श्री सरेश गप्ता एवं 2) श्री अंकित गप्ता. पत्र श्री राजेश गुप्ता, 3) श्री संगरतन, पुत्र श्री मलुक चंद बनिवाल को उक्त सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिने के भीतर सुचना में वर्णित राशि रु. 49,79,351.15 (रु. उन्चास लाख उन्यासी हजार तीन सौ इक्यावन

एवं पैसे पन्द्रह मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदृद्वारा ऋणधारक/गारंटर्स तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि आज, 07.05.2022 को 10:11 बजे पूर्वा में अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियं का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदुद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 31.01.2022 के ह. 49.79.351.15 तथा आगे की लागत, ब्याज एवं खर्चे आदि के लिये पंजाब एंड सिंध बैंक (बी.ओ

पहाडगंज) के चार्ज के अधीन होगा। ऋणधारक का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति सं. ०१ का विवरण ''गिरवी रखी गई अचल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सााः ग्राम बाबरपुर, पश्चिम गोरख पार्क की आबादी, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110032 में स्थित निर्मित तीसरा तल, छत के अधिकार के साथ माप 100 वर्ग सार्ड्स, खसरा नं. 5138368/2, सम्पत्ति सं. 1/10323 बिक्री प्रलेख-उप रजिस्ट्रार IV-ए, शाहदरा, नई दिल्ली के कार्यालय में बुक नं. 1, वाल्यूम न. 2334, पेज 46 से 45 पर 18.02.2017 को पंजीकरण-605, सम्पत्ति की चौहद्दीः

उत्तर: अन्य सम्पत्ति. पश्चिम: अन्य सम्पत्ति. पूर्व: अन्य सम्पत्ति,

तिथि: 07.05.2022. स्थान: नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एंड सिंध बैंक

M UCO BANK

सार्वजनिक सूचना

केंद्रीय सरकार के समक्ष, रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली और हरियाणा एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के एक राज्य से अन्य राज्य में परिवर्तन के लिए विज्ञापन सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप–धारा (३) और सीमित देयता भागीदारी नियम. 2009 के नियम 17 के मामले में

नेजोन पैकेजिंग एलएलपी (एलएलपीआईएन : एएजी—6007)

जिसका पंजीकृत पता : 908 प्रकाश दीप बिल्डिंग, 9वीं मंजिल, 7 टॉल्स्टॉय मार्ग, कर्नॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001आवेदक / याचिकाकर्ता एलएलपी

सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि "नेजोन पैकेजिंग एलएलपी" ने सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 (3) के तहत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दिल्ली और हरियाणा को एक याचिका का प्रस्ताव किया है, जिसमें पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" "उत्तर प्रदेश राज्य" में बदलने की अनुमति मांगी गई है। एलएलपी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है। तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति इस सचना के प्रकाशन की तारीख से 21 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली और हरियाणा, चौथी मंजिल, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस. नई दिल्ली- 110019 पर पंजीकत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक एलएलपी कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकत कार्यालय पते पर भी भेजें। 908 प्रकाश दीप बिल्डिंग, 9वीं मंजिल, 7 टॉल्स्टॉय मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

नेजोन पैकेजिंग एलएलपी अभिनव लखोटिया दिनांक: 09 मई 2022 (नामित साझेदार) स्थानः नई दिल्ली डीपीआईएन: 01727891

आवेदक के लिए और उसकी ओर सं

(7 Piramal पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रूप में प्रचलित)

शाखा का पताः पीसीएचएफएल, ए–6, सेक्टर–2

शृद्धिपत्र ई-नीलामी बिक्री सूचना

ठाइनेंसियल एक्सप्रेस और जनसत्ता समाचार–पत्र में दिनांव

30.04.2022 को प्रकाशित की गई, मेसर्स सरस्वती एडुविजन

प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित बिक्री सूचना में भौतिक संपत्ति

की नीलामी के बजाय प्रतीकात्मक कब्जा ई -नीलामी व

रूप में पढ़ा जाए। बिक्री नोटिस में अन्य सामग्री अपरिवर्तित

(T) IDBI BANK

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

प्लॉट न० सी पी -12, विराज खण्ड,

गोमती नगर, लखनऊ

पिन कोड - 226010

अंचल कार्यालय, लखनऊ के

अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर में

सिविल, इंटीरियर फर्नीशिंग एवं

इलैक्ट्रिकल कार्य हेतु निविदा

आईडीबीआई बैंक अपने अंचल कार्यालय,

लखनऊ के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर

में सिविल, इंटीरियर फर्नीशिंग एवं

इलैक्ट्रिकल कार्य हेतु निविदा आमंत्रित कर

रहा है। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि

मई 30, 2022 है। अधिक जानकारी के लिए

मइ 09, 2022

शाखा का पताः मुखर्जी नगर, नई दिल्ली-1547

अंचल प्रमुख &

मुख्य महाप्रबंधक.

लखनऊ अंचल

(प्राधिकृत अधिकारी)

कृते पिरामल कैपिटल एंड

हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेर

है। ई नीलामी की तिथि 31 मई 2022 है।

दिनांकः 09--05--2022

स्थान : नई दिल्ली

फाइनेंस लिमिटेड

6 Piramal पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग

(पूर्व में दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रूप में प्रचलित) शाखा का पताः पीसीएचएफएल, कार्यालय संख्या 21 और 212, दूसरी मंजिल 'टाइटेनियम' शालीमार कॉर्पोरे पार्क, विभृतिखंड, गोमती नगर, लखनऊ— 226010 शुद्धिपत्र ई-नीलामी बिक्री सूचना

गइनेंसियल एक्सप्रेस और जनसत्ता समाचार-पत्र दिनांक 30.04.2022 को प्रकाशित की गई, रोहतार प्रोजेक्ट्स लिमिटेड से संबंधित बिक्री सूचना भौतिक संपत्ति की नीलामी के बजाय प्रतीकात्मव कब्जा ई – नीलामी के रूप में पढ़ा जाए। बिक्री नोटिस में अन्य सामग्री अपरिवर्तित है। नीलामी की तिथि 31 मई 2022 है।

(प्राधिकृत अधिकारी) दिनांकः 09--05--2022 कृते पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

प्रपत्र स. आईएनसी— 26 [कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 और कंपनियां (निगमन) दूसरा संशोधन नियम। 2017 के अनपालनार्थ)

केंद्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (ए) के मामले में

रूप ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय- डब्ल्यू जेड-36,37, शॉप नं. .2,3, प्रथर तल. लाला राम कॉम्प्लेक्स ज्वाला हेरी मार्केट. पश्चिम विहार, नई दिल्ली 110063 इन में है, के मामले में मर्वसाधारण को एतद्दवारा सूचना दी जाती है वि


कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहर केंद्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को "कंपनी बैंक की वैबसाइट www.idbibank.in रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्राधिकार वं अंतर्गत एनसीटी दिल्ली राज्य" से "हरियाणा" राज्य बदलने में सक्षम बनाने के लिए सोमवार, 28 मार्च, 2022 कंपनी को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशिष्ट प्रस्ताव के संबंध में कंपनी के मेमोरेंडम ऑप एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि की मांग की गई है कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने क संभावना है, वह या तो एम.सी.ए.–21 पोर्टत (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फॉर दाखिल करके या अपना पक्ष प्रस्तुत करने का कारप दर्ज कर सकता है अथवा अपनी रुचि की प्रकृति औ विरोध के आधार को बताते हुए एक हलफनामा द्वार समर्थित अपनी आपत्तियों को क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर्र क्षेत्र, दिल्ली, बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन सीजीओ कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली - 110003 के माध्या से कार्यरत केंद्र सरकार को तथा उसकी एक प्रति आवेदक कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय में नीचे दिए गए पते पर इस सूचना के प्रकाशन की तिथि रं चौदह दिन के अंदर पंजीकृत डाक से भेज सकता है रूप ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड

पता : डब्ल्यू जेड -36,37, शॉप नं. .2,3, प्रथम तल, लाला राम कॉम्प्लेक्स ज्वाला हेरी मार्केट, पश्चिम विहार, नई दिल्ली 110063 इन कृते और रूप ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड

(आवेदक) की ओर

स्थान : दिल्ली डीआईएन : 01603078

दिनांकः 09.05.2022





SMC GLOBAL SECURITIES LIMITED

Moneywise. Be wise.

(CIN: L74899DL1994PLC063609)

Regd. Office: 11/6-B, Shanti Chamber, Pusa Road, New Delhi-110005

Phone No: 011-30111000 | email: smc@smcindiaonline.com | website: www.smcindiaonline.com

Consolidated Year 2022 vs Year 2021 (₹ in crores) PBT PAT

Income from operation 1,106.33

23% 901.27 221.39 55% 142.54

174.57 66% 105.02 **EPS** (₹) 15.43

66%

9.28

Extract of audited consolidated financial results for the quarter and year ended March 31, 2022

	(₹ IN LAKHS)
CONSOLIDATED	

SR. No.	ICULARS Quarter Ended			Year	Ended	
140.		March 31, 2022 (Audited)	December 31, 2021* (Unaudited)	March 31, 2021* (Audited)	March 31, 2022 (Audited)	March 31, 2021 (Audited)
1	Total Income from operations	28,608.21	28,137.70	26,177.50	110,632.94	90,126.74
2	Net Profit for the period (before Tax and Exceptional Items)	5,152.06	4,326.36	4,106.82	22,138.58	14,254.48
3	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional Items)	5,152.06	4,326.36	4,106.82	22,138.58	14,254.48
4	Net Profit for the period after Tax (after Exceptional Items)	4,092.37	3,429.60	3,302.75	17,456.85	10,501.53
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit	3,928.90	3,524.26	3,845.71	17,622.12	10,772.87
	(after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))					
6	Paid Up Equity Share Capital	2,262.69	2,262.69	2,262.69	2,262.69	2,262.69
	(Face Value of ₹2 each)					
7	Reserves				90,347.69	75,008.22
8	Earnings per share (EPS) (in₹)					
	Basic & Diluted EPS	3.62	3.03	2.92	15.43	9.28

* Restated. Refer Note 5

Notes:

- 1 The above audited results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on Saturday, the 7th day of May, 2022. The results have been audited by the Statutory Auditors of the Company and have issued unmodified report.
- 2 The Board has proposed and recommended the final dividend for FY 2021-22 @ 60% i.e. ₹ 1.20 per equity shares of the face value of ₹ 2/- each amounting to ₹ 1,357.61 lakhs to its equity shareholders, (subject to approval of the shareholders in the ensuing Annual General Meeting) in addition to interim dividend @60% paid during the FY 2021-22, this makes the total dividend @120% i.e., ₹ 2.40 per equity share.
- 3 Additional information on standalone financial results is as follows:

(₹ IN LAKHS)

PARTICULARS		Quarter Ended		Year Ended		
	March 31, 2022 (Audited)	December 31, 2021* (Unaudited)	March 31, 2021* (Audited)	March 31, 2022 (Audited)	March 31, 2021 (Audited)	
Income from operations	16,840.39	15,792.57	15,065.41	66,994.06	50,129.98	
Profit before tax	3,752.60	3,433.16	4,089.91	18,216.95	10,523.60	
Profit after tax	2,977.87	2,625.62	3,355.80	14,461.03	7,494.29	

- 4 The company has subscribed 45,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each of Moneywise Finvest Limited (wholly owned subsidiary of the company) at ₹ 10/- per share amounting to ₹ 4,50,00,000.
- 5 The above is the extract of the detailed format of quarterly and year ended financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the quarterly and year ended financial results are available on the Investor Corner Section of our website www.smcindiaonline.com.
- Accounting Standards) Rules, 2015 as amended from time to time.
- respective financials years. 8 Previous quarters/year ended figures have been regrouped/reclassified wherever necessary to confirm to the current quarter/year presentation.

For and on behalf of the Board

स्थापः नई दिल्ली, मई, 2022

शिखर अगरवाव संयु. प्रबंध निदेशक

6 The financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian

7 The figures for quarter ended March 31, 2022 and March 31, 2021 represents the balance between audited financials in respect of full financials year and those published till the third quarter of the

S. C. AGGARWAL

MAHESH C. GUPTA (Vice Chairman & Managing Director)

VINOD KUMAR JAMAR (President & Group CFO)

DIN:069/15729

Date : May 7, 2022

Place: Kathmandu, Nepal

(Chairman & Managing Director) (DIN: 00003267)

(DIN: 00003082)

www.readwhere.com

बीएलएस इन्टरनेशनल सर्विसेस लिमिटेड के लिये

यको बैंक

If any creditor of the Company has any objection to the application or the details in the list of creditors, the same may be sent (alongwith supporting documents) and details about his name and address and the name and address of his Authorised Representative, if any, to the undersigned at House No. 63, First Floor, H-3 Block, Vikaspuri, New Delhi -110018 within 15 days from date of this notice.

[Pursuant to Rule 3(3)]

Before the National Company Law

Tribunal Court VI at New Delhi

Devshakti Free Electric Private Limited

Applicant

Publication of Notice

Notice may be taken that an application was

presented to the Tribunal on the 25th day of

November 2021 for confirming the reduction

The notices to individual creditors have

been issued. The list of creditors prepared

of the share capital of the above Compan

from ₹40,88,41,680 to ₹ 14,88,41,680.

If no objection is received within the time stated above, entries in the list of creditors will, in all the proceedings under the above petition to reduce the share capital of the Company, be treated as correct.

It may also be noted that a hearing has been fixed for Thursday, 19th May 2022 on which the Tribunal shall hear the application. In case any creditor intends to attend the hearing he should make request along with his objections, if anv.

Authorised Representative for the

मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : टीसी सं. 14/2074-7, मुथूट सेंटर, पुन्नेन रोड, तिरुअनन्तपुरम-695 034, सीआईएन नं. : U65922KL2010PLC025624 **कॉर्पोरेट कार्यालय** : 12/ए 01, 13वीं मंजिल, परिनी क्रीसेंजो, प्लॉट सं. सी38 एवं सी39, बान्द्रा muthoot कुर्ला कॉम्पलेक्स-जी ब्लॉक (पूर्व), मुम्बई-400051, दूरभाष : 022-62728517 अधिकत प्राधिकारी ई-मेल आईडी : authorised.officer@muthoot.com HOUSING FINANCE

परिशिष्ट-IV [नियम 8(1)] कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) जबिक, अधोहस्ताक्षरी प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सं. 54) की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभृति हिल (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में मैसर्स मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी लि. का अधिकृत प्राधिकार होने के नाते निम्नलिखित कर्जदारों/जमानती/यों को एक माँग सूचना निर्गत की थी। कथित सूचना की प्राप्ति से 60 दिन पूर्ण होने के पश्चात तक कर्जदार/जमानती राशि का

क्र.	कर्जदार∕सह−कर्जदार∕जमानती	मॉंग सूचना	कुल बकाया	प्रतिभूत आस्ति(याँ)/अचल सम्पत्ति(याँ)	कब्जा करने की
सं.	का नाम	की तिथि	राशि	का विवरण	तिथि
	लेन नंबर 15100093063 संजीव कुमार आरती अत्तर सिंह	21-जून-2022	721,042.32/- 10 जनवरी, 2022 तक	खसरा नं. 527 मिन, मोहल्ला सत्यालोक आश्रम, मुरादनगर जलालाबाद परगना, तहसील मोदीनगर, उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, 201206, भारत, पूर्व : आर.एन. त्यागी का प्लॉट, पश्चिम : अन्य प्लॉट, उत्तर : मिथिलेश का प्लॉट, दक्षिण : 24 फीट चौड़ी सड़क	

पुनर्भुगतान करने में असफल रहे अतः एतद्वारा कर्जदार/रों/जमानती/यों तथा जनसामान्य को सुचना दी जाती है कि कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अध्यादेश

संव्यवहार उपर्युक्त माँगकृत राशि तथा उस पर ब्याज के लिए **मैसर्स मुथ्ट हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड** के अभियोग का प्रभार होगा। ह./- अधिकृत प्राधिकारी तिथि : 09 मई, 2022 कृते मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

CIN:L51909DL1983PLC016907

इन्टरनशनल सविसंस लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: जी-4, बी-1, एक्स्टेंशन, मोहन को-ऑपरेटिव इंडस्टियल इस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110044 टेली. नं.: 011-45795002, फैक्स: 011-23755264, ई-मेल: compliance@blsinternational.net, वेबसाईट: www.blsinternational.com

की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित सम्पत्ति पर सांकेतिक कब्जा कर लिया है।



उपरोक्त आँकडें वर्ष दर वर्ष तलना को प्रदर्शित करते हैं। 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिये अंकेक्षित समेकित एवं स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों का विवरण:

समेकित वित्तीय परिणामों:					रु. लाख में त वर्ष	
विवरण	1	समाप्त तिमाही				
	31 मार्च,	31 दिसम्बर,	31 मार्च,	31 मार्च,	31 मार्च,	
	2022	2021	2021	2022	2021	
	अकेंक्षित	अनकेंक्षित	अकेंक्षित	अवे		
प्रचालनों के कुल राजस्व	25,384.26	22,705.78	14,456.18	84,988.97	47,837.07	
अवधि के लिये शुद्ध लाभ (कर एवं विशिष्ट मर्दों से पूर्व)	3,726.09	2,744.52	1,561.84	11,395.85	4,836.52	
अवधि के लिये शुद्ध लाभ (कर एवं विशिष्ट मदों के बाद)	3,520.22	2,829.09	2,297.83	11,120.65	5,033.19	
अविध के लिये कुल व्यापक आय (अविध के लिये (कर से पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर से पश्चात) के लिये लाभ शामिल	3,874.85	3,122.05	2,224.14	12,121.72	4,117.27	
प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य रु. 1/- प्रति)	1,024.50	1,024.50	1,024.50	1,024.50	1,024.50	
आय प्रति शेयर (ईपीएस) (वार्षिकीकत नहीं)						

आय प्रति शेयर (इपीएस) (वार्षिकीकत नहीं) क) मूल ईपीएस-रु. 10.86 4.90 3.45 2.29 2.75 10.86 4.90 3.45 ख) तरल ईपीएस-रु. 2.75 2.29 1. मुख्य स्टैंडएलॉन वित्तीय जानकारी इस प्रकार है: (रु. लाख में समाप्त तिमाही समाप्त वर्ष 31 दिसम्बर, 31 मार्च 31 मार्च, 31 मार्च, 2021 2022 2021 अकेंक्षित अनकेंक्षित अकेंक्षित अकेंक्षित प्रचालनों के कुल राजस्व 1,499.23 1,134.56 649.94 4,026.65 2,025.77

अवधि के लिये शुद्ध लाभ (कर एवं विशिष्ट मदों से पूर्व) 42.74 1,741.23 2,379.32 1,356.00 53.32 अवधि के लिये शुद्ध लाभ (कर एवं विशिष्ट मदों के बाद) 41.99 1,611.49 1,258.69 170.61 2.080.90 अवधि के लिये कल व्यापक आय 1,248.67 1,614.98 2,178,45 46.49 262.33 (अवधि के लिये (कर से पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) के लिये लाभ शामिल

2. उक्त अंकेक्षित परिणामों की बोर्ड की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई है तथा 7 मई, 2022 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में अभिलेख में लिये गये है कम्पनी के सांविधिक अंकेक्षित सेबी (सचीयन दायित्व एवं उदघाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के अंतर्गत वांछित रूप में सीमित समीक्षा की है तथा संबंधित रिपोर्ट संबंधित स्टॉक एक्स्चैंजो में जमा किये जा रहे हैं। 3. कोविड-19 की स्थिति तथा उसके परिणामस्वरूप सार्वभौमिक रूप से यात्रा एवं पर्यटन में हुई गिरावट से एफवाई 2020-21 के दौरान ग्रुप का परिचालन विपरीत रूप

से प्रभावित हुआ है। सरकार द्वारा सीमाओं को फिर से खोलने तथा वैश्विक स्तर पर जारी टीकाकरण अभियानों के आधार पर हमें आशा है कि आगामी वित्त वर्ष

अर्थात 2022-23 में यात्रा एवं पर्यटन व्यवसाय तीव्र गति से आगे बढेगी। हमने कोविड -19 के किसी भी प्रतिकल प्रभावों को कम से कम करने के लिये विभिन्न जोखिम-शमन उपाय किये हैं तथा परिस्थित पर गहनता से निगरानी करते रहेंगे। 4. 31 मार्च, 2022 तथा 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही के आँकड़े सम्पूर्ण वित्त वर्ष तथा संबंधित वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही तक तिथि तक वर्ष के प्रकाशित आंकड़े के संदर्भ में अंकेक्षित आंकड़ो के बीच संतलक आँकड़े हैं जो ग्रप के सांविधिक अंकेक्षक द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन थे।

5. 7 मई. 2022 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल ने रु. 1/- प्रति की इस्विटी शेयर के लिये रु. 0.25 के लाभांश के भुगतान की सिफारिश की है जो आगामी वार्षिक आम सभा में उसके शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन है। 6. उपरोक्त सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंजो में दाखिल की गई तिमाही एवं समाप्त वर्ष के

वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। समाप्त तिमाही एवं वार्षिक परिणामों का सम्पर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज को वेबसाईट (www.nseindia.com. www.bseindia.com www.msei.in उपलब्ध (www.blsinternational.com) पर प्रकाशित है।

Sanjay Agarwal